



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 15—अगस्त 21, 2009 (श्रावण 24, 1931)

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 15—AUGUST 21, 2009 (SHRAVANA 24, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

देना बैंक

मुंबई-400051,

देना बैंक का निदेशक मंडल बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से देना बैंक (शेयर और बँठकें) विनियम, 2003 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन विनियमों को देना बैंक (शेयर एवं बँठकें) संशोधन विनियम, 2008 कहा जा सकेगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. देना बैंक (शेयर एवं बँठकें) विनियम, 2003 के विनियम 2 और 4 का संशोधन :-

(i) खण्ड (पी) हेतु विनियम 2 में निम्नलिखित खण्ड स्थान लेंगे अर्थात् :-

“इसमें प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या योजना अथवा भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड द्वारा जारी दिशानिदेशों तथा अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2बी) के खण्ड (सी) के उपबंध के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए दिशानिदेशों में परिभाषित हैं, के अर्थ क्रमशः वहीं रहेंगे जो उन्हें अधिनियम अथवा योजना अथवा भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड द्वारा जारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए दिशानिदेशों, यथास्थिति, में समनुदेशित किए गए हैं।”

(ii) विनियम 4 के बाद निम्नलिखित विनियम शामिल किए जाएंगे अर्थात् :-

- 4ए (1) बैंक, सार्वजनिक निर्गम अथवा अधिमानी आवंटन अथवा निजी स्थान नियोजन अथवा ईक्विटी शेयर अथवा अधिमान शेयर के माध्यम से पूंजी जुटा सकता है।
- (2) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड के पूंजी जुटाने से संबंधित दिशानिर्देशों, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार पूंजी जुटाने के लिए बैंक एक प्रस्ताव तैयार करेगा।
- (3) सार्वजनिक निर्गम अथवा अधिमानी आवंटन अथवा अधिमान शेयरों के निजी स्थान नियोजन के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए ऐसे अधिमान शेयरों (चाहे चिरस्थायी या अपुनर्देय या पुनर्देय हों) के प्रत्येक संवर्ग के निर्गम का विस्तार तथा नियम व शर्तें, ताकि बैंक द्वारा ऐसे अधिमान शेयर प्रत्येक संवर्ग को जारी किए जा सकें, अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2बी) के खण्ड (सी) के उपबंध में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।
- (4) प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के पहले बैंक उसे रिज़र्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसके विचारों को भी शामिल करेगा।
- (5) उसके बाद अंतिम प्रस्ताव स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार संबंधित नियम व शर्तों के अधीन इसकी स्वीकृति जैसा भी वह उचित समझे, दे सकती है।
- (6) बैंक केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के अनुसार पूंजी जुटा सकता है।

सहायक महाप्रबंधक

महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :-- मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना (भाग III, धारा 4) दिनांक 29.04.1999 तथा भारत के राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 28.11.2003 के परवर्ती संशोधन के साथ प्रकाशित हुई थी।

दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2006

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 1 सी.ए. (7) (127)/2009--चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम 1988 के विनियम 159 (1) के अनुसरण में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया की परिषद्, पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद्, को एक शाखा की दिनांक 9 जुलाई, 2009 से वापी में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद् की वापी के नाम से जानी जायेगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वापी के साथ-साथ वापी नगर की सीमा से 50 किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले निम्नलिखित शहर/नगर आयेंगे :--

1. बिलिमोरा
2. दादरा
3. दमन
4. बलसाड
5. दहानु
6. सिलवासा
7. उम्बरगाँव

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद् के नियंत्रण पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए पश्चिमी प्रादेशिक परिषद् की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी जो परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किये जायेंगे।

टी. कार्तिकेयन  
सचिव



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 15—अगस्त 21, 2009 (श्रावण 24, 1931)

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 15—AUGUST 21, 2009 (SRAVANA 24, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

देना बैंक

मुंबई-400051,

देना बैंक का निदेशक मंडल बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्ण स्वीकृति से देना बैंक (शेयर और बँडों) विनियम, 2003 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन विनियमों को देना बैंक (शेयर एवं बँडों) संशोधन विनियम, 2008 कहा जा सकेगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. देना बैंक (शेयर एवं बँडों) विनियम, 2003 के विनियम 2 और 4 का संशोधन :--

(i) खण्ड (पी) हेतु विनियम 2 में निम्नलिखित खण्ड स्थान लेंगे अर्थात् :--

“इसमें प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या योजना अथवा भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड द्वारा जारी दिशानिदेशों तथा अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2बी) के खण्ड (सी) के उपबंध के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए दिशानिदेशों में परिभाषित हैं, के अर्थ क्रमशः वही रहेंगे जो उन्हें अधिनियम अथवा योजना अथवा भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड द्वारा जारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए दिशानिदेशों, यथास्थिति, में समनुदेशित किए गए हैं।”

(ii) विनियम 4 के बाद निम्नलिखित विनियम शामिल किए जाएंगे अर्थात् :--

- 4ए (1) बैंक, सार्वजनिक निर्गम अथवा अधिमानी आवंटन अथवा निजी स्थान नियोजन अथवा ईक्विटी शेयर अथवा अधिमान शेयर के माध्यम से पूंजी जुटा सकता है।
- (2) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड के पूंजी जुटाने से संबंधित दिशानिर्देशों, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार पूंजी जुटाने के लिए बैंक एक प्रस्ताव तैयार करेगा।
- (3) सार्वजनिक निर्गम अथवा अधिमानी आवंटन अथवा अधिमान शेयरों के निजी स्थान नियोजन के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए ऐसे अधिमान शेयरों (चाहे चिरस्थायी या अपुनर्देय या पुनर्देय हों) के प्रत्येक संवर्ग के निर्गम का विस्तार तथा नियम व शर्तें, ताकि बैंक द्वारा ऐसे अधिमान शेयर प्रत्येक संवर्ग को जारी किए जा सकें, अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2बी) के खण्ड (सी) के उपबंध में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।
- (4) प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के पहले बैंक उसे रिज़र्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसके विचारों को भी शामिल करेगा;
- (5) उसके बाद अंतिम प्रस्ताव स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार संबंधित नियम व शर्तों के अधीन इसकी स्वीकृति जैसा भी वह उचित समझे, दे सकती है।
- (6) बैंक केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के अनुसार पूंजी जुटा सकता है।

सहायक महाप्रबंधक

महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :-- मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना (भाग III, धारा 4) दिनांक 29.04.1999 तथा भारत के राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 28.11.2003 के परवर्ती संशोधन के साथ प्रकाशित हुई थी।

दी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2006

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 1 सी.ए. (7) (127)/2009--चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम 1988 के विनियम 159 (1) के अनुसरण में इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया की परिषद्, पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद्, की एक शाखा की दिनांक 9 जुलाई, 2009 से वापी में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद् की वापी के नाम से जानी जायेगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वापी के साथ-साथ वापी नगर की सीमा से 50 किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले निम्नलिखित शहर/नगर आयेंगे :--

1. बिलिमोरा
2. दादरा
3. दमन
4. बलसाड
5. देहानु
6. सिलवासा
7. उम्बरगाँव

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद् के नियंत्रण पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए पश्चिमी प्रादेशिक परिषद् की मारफ़्त कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी जो परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किये जायेंगे।

टी. कार्तिकेयन  
सचिव

चेन्नई-600034, दिनांक 30 जून 2009

3 एस.सी.ए. (5)/1/2007-2008--इस संस्थान की अधिसूचना सं. 3 एस. सी. ए. (4)/1/2007-2008 दिनांक 25 मार्च 2009 के संदर्भ में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अधिनियम की 1988 के विनियम 20 के अनुसरण करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि चार्टर्ड लेखाकार अधिनियम की धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्ति लेखाकार संस्था परिषद् ने संस्थान के सदस्यों के रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों के नाम दिनांक 1 अक्टूबर 2007 से पुनः स्थापित कर दिये हैं।

क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	विषय	क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	विषय
1	004407	श्री भगवान कृष्णा प्रसाद	एफ सी ए	31	022909	श्री शाहजी पौलोस	एफ सी ए
2	006027	श्री चेल्लापन पीएल	ए सी ए	32	022947	श्री हरिगोपाल एल	ए सी ए
3	008628	श्री गोविन्दा राव के वी	ए सी ए	33	023150	श्री कृष्णा कुमार एस	एफ सी ए
4	012696	श्री अयास्वामी जी	एफ सी ए	34	023250	श्री राधा कृष्णा बाबू जी	एफ सी ए
5	013907	श्री बालारमन वी	एफ सी ए	35	023345	श्री शार्मा जी के ए पी	ए सी ए
6	014518	श्री सोन्नाराजन एस	ए सी ए	36	023563	श्री चिथरंजन टी	एफ सी ए
7	015079	श्री मधवेश पी	एफ सी ए	37	023638	श्री अम्मानगी यू जी	एफ सी ए
8	018066	श्री कृष्णा मूर्ति जी	ए सी ए	38	023784	श्री कोडाली हरेश बाबू	ए सी ए
9	018264	श्री मुर्धुजा ए सैयद	एफ सी ए	39	023826	श्री नागाराजन आर	एफ सी ए
10	018843	श्री सम्बाशिवा राव एस	एफ सी ए	40	023890	श्री वेन्कटेशन एम	ए सी ए
11	019004	श्री रामचन्द्राही सी	एफ सी ए	41	023931	श्री अनन्था कृष्णन आर	ए सी ए
12	019217	श्री मुरली एन के	ए सी ए	42	023934	श्री सम्पथ कुमार पी बी	एफ सी ए
13	019261	श्री रमेश बाबू के	एफ सी ए	43	024137	श्री श्रीनिवासन एस	एफ सी ए
14	019626	श्री श्रीधरन पी	एफ सी ए	44	024145	श्री बालासुब्रामनीयन एम	ए सी ए
15	019737	श्री तिरुमाला राव एस	एफ सी ए	45	024147	कुमारी सुमाथी आर	ए सी ए
16	019863	श्री बालाजी जी एस	एफ सी ए	46	024160	श्री रंगन एन कनन	एफ सी ए
17	019950	श्री वासुदेवन ए एस	ए सी ए	47	024321	श्री जलालुद्दीन ए एम	एफ सी ए
18	020198	श्री सुब्बारतनन पी	ए सी ए	48	024463	श्री कनन बी	एफ सी ए
19	020642	श्री राघवन आर एस	ए सी ए	49	024575	श्री रवि एस	ए सी ए
20	020989	श्री कृष्णामूर्ति आर	एफ सी ए	50	024657	श्री सुब्रामनीयम वी एस वी	एफ सी ए
21	021375	श्री कृष्णन आर	एफ सी ए	51	024693	श्री थानाराज टॉनी जयन्त	ए सी ए
22	021569	श्री कृष्णासामी वी	ए सी ए	52	024781	श्री मूधू राजू एस	एफ सी ए
23	021983	श्री भवनानी टी रमेश	ए सी ए	53	024968	श्री रविचन्द्ररन एन	एफ सी ए
24	022100	श्री रगानाथन वी	ए सी ए	54	025060	श्री श्रीराम आर	एफ सी ए
25	022205	श्री श्रीनिवासन वी	ए सी ए	55	025641	श्री मोहन जे	एफ सी ए
26	022238	श्री मुरली कृष्णामूर्ति सी एच जी	एफ सी ए	56	025715	श्री मुरली टी एन	एफ सी ए
27	022347	श्री रामासुब्रामनीयन एस	ए सी ए	57	025996	श्री विश्वनाथन सी	ए सी ए
28	022475	श्री भारथन आर	ए सी ए	58	026003	श्री रविन्द्र कुमार एम	ए सी ए
29	022520	श्री शंकर आर	ए सी ए	59	026125	श्री पदमानाभान पी एम	ए सी ए
30	022775	श्री देनूगोपाल एस	एफ सी ए	60	026153	श्री महेन्द्र कुमार एम	एफ सी ए

क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	विषय	क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	विषय
61	026445	कुमारी लक्ष्मी राजागोपालन	एफ सी ए	102	065221	श्री विनीत चर्तुवेदी	ए सी ए
62	026614	श्री श्रीधर ए	ए सी ए	103	071883	श्री भारत भूषण मितथल	एफ सी ए
63	026623	श्री राजावेलु एम एस	एफ सी ए	104	073178	श्री सरंगापानी सी एच	एफ सी ए
64	026786	श्री वरकेई एम कुरेन	एफ सी ए	105	080910	श्री सेमुलराज टी जेम्स	ए सी ए
65	026903	श्री सेकर टी एन	एफ सी ए	106	082105	श्री श्रीवास्तवा सत्या कुमार	ए सी ए
66	026960	श्री सध्यामूर्ति आर	एफ सी ए	107	086277	श्री वाही अनिल	एफ सी ए
67	027122	श्री अशोक कुमार डी	ए सी ए	108	095854	श्री निर्वान महेश कुमार	ए सी ए
68	027421	श्री बीनू जेकोब कुरैन	ए सी ए	109	098953	कुमारी रजनी वी रमन	ए सी ए
69	027645	श्री बद्रीनाथ राव	एफ सी ए	110	102735	श्री भागवत सुवरया रामाकृष्णा	ए सी ए
70	027784	श्री शिवाराज एम	ए सी ए	111	108321	श्रीमति जालन कोमल नीरज	ए सी ए
71	028188	श्री कुमार जी एच एस	एफ सी ए	112	109726	श्री जौनाथन अनचेन	ए सी ए
72	028215	श्री श्रीकान्ध ए	ए सी ए	113	113605	श्री अजय जैन	ए सी ए
73	028551	श्री वेद्यानाथ वी ए	एफ सी ए	114	113981	कुमारी नन्दिता शंकररमन	ए सी ए
74	028616	श्री प्रकाश रामा चन्द्ररन	एफ सी ए	115	115066	श्री मनीष भास्कर राव व्यावहरे	एफ सी ए
75	028795	श्री प्रसाद ए एस वी	ए सी ए	116	118087	श्री संजय वाधवानी	ए सी ए
76	028798	श्री पारथासार्थी आर	ए सी ए	117	200120	श्री सेलवा थीरावीयम एच	एफ सी ए
77	028944	श्री शेषाहदरी के	एफ सी ए	118	200201	श्री मधु सुधन पी	एफ सी ए
78	028965	श्री जितेन्द्र बाबू एम	एफ सी ए	119	200342	श्री पालानीयप्पन टी आर	एफ सी ए
79	029004	श्री शंकर एस मूर्ति	एफ सी ए	120	200348	श्री कृष्णा श्रीनिवासन	ए सी ए
80	029005	श्री थानीगए अरासू एस	एफ सी ए	121	200386	श्री श्रीधरन वी आर	एफ सी ए
81	029280	श्री विनोद	ए सी ए	122	200392	श्री सुब्रामनीयन के	ए सी ए
82	029283	श्री बालारमन के	ए सी ए	123	200500	श्री जॉन के अब्राहम	एफ सी ए
83	029352	श्री गोपीनाथ एन एल	ए सी ए	124	200588	श्री बालाजी पी बी	एफ सी ए
84	029358	श्री श्रीधरन आर	ए सी ए	125	200794	श्री गणेश उप्पाला	एफ सी ए
85	029499	श्री कानन एस	ए सी ए	126	200901	श्री शिवकुमार एस	ए सी ए
86	034238	श्री अशोक एस	ए सी ए	127	200943	श्री मुरली नारायणन वी आर	एफ सी ए
87	040217	श्री नागदा जयेश लक्ष्मीचन्द	एफ सी ए	128	201044	श्री गोपालकृष्णन वी	ए सी ए
88	042559	श्री इसरानी हिरेन हेमन	ए सी ए	129	201364	श्री एलेक्स पी अब्राहम	एफ सी ए
89	042703	श्री सुरेन्द्र कुमार घोष	ए सी ए	130	201380	श्री वेक्टा शेषाइह कोन्डामुरी	ए सी ए
90	043190	श्री गुरुदत्त कमलक्स शेनोए	ए सी ए	131	201561	श्री निर्मल कुमार एस एम	ए सी ए
91	045702	कुमारी कुलकर्णी सोनाली जी	ए सी ए	132	201568	श्री महादेवन जी	एफ सी ए
92	050359	श्री चट्टोपाध्या उदय शंकर	एफ सी ए	133	201633	श्री मनीवानन एस	ए सी ए
93	053929	श्री संजय सर्फ	एफ सी ए	134	201735	श्री शेक्कीजहर बी	एफ सी ए
94	056434	श्री पानी बसन्त कुमार	ए सी ए	135	201991	कुमारी रेवथी आर	ए सी ए
95	058039	कुमारी जयश्री मंत्री इशवरन	ए सी ए	136	202078	कुमारी इन्दू माधवन	एफ सी ए
96	058708	श्री कुमार घनश्याम	ए सी ए	137	202110	श्री श्रीनिवासारघवन आर	ए सी ए
97	059552	श्री पान्डा चन्द्रमानी	एफ सी ए	138	202164	श्री शिवकुमार टी	ए सी ए
98	060256	श्री जैन सौरभ	ए सी ए	139	202175	श्री नारायणन एल	एफ सी ए
99	060466	श्री धीरज कुमार	ए सी ए	140	202214	श्री रामा राव माडीपाल्ली	एफ सी ए
100	060701	श्री अग्रवाल बिनय	ए सी ए	141	202249	श्री मुरलीधरन एस	ए सी ए
101	062864	श्री विजय कुमार जाम्मूला	ए सी ए	142	202271	श्री नन्दूरी वी एस एस गंगाराजू	ए सी ए

चेन्नई-600034, दिनांक 30 जून 2009

3 एस.सी.ए. (5)/1/2007-2008--इस संस्थान की अधिसूचना सं. 3 एस. सी. ए. (4)/1/2007-2008 दिनांक 25 मार्च 2009 के संदर्भ में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अधिनियम की 1988 के विनियम 20 के अनुसरण करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि चार्टर्ड लेखाकार अधिनियम की धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्था परिषद् ने संस्थान के सदस्यों के रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों के नाम दिनांक 1 अक्टूबर 2007 से पुनः स्थापित कर दिये हैं।

क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	विषय	क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	विषय
1	004407	श्री भगवान कृष्णा प्रसाद	एफ सी ए	31	022909	श्री शाहजी पोलोस	एफ सी ए
2	006027	श्री चेल्लापन पीएल	ए सी ए	32	022947	श्री हरिगोपाल एल	ए सी ए
3	008628	श्री गोविन्दा राव के वी	ए सी ए	33	023150	श्री कृष्णा कुमार एस	एफ सी ए
4	012696	श्री अयास्वामी जी	एफ सी ए	34	023250	श्री राधा कृष्णा बाबू जी	एफ सी ए
5	013907	श्री बालारमन वी	एफ सी ए	35	023345	श्री शार्मा जी के ए पी	ए सी ए
6	014518	श्री सोन्नाराजन एस	ए सी ए	36	023563	श्री चिथरंजन टी	एफ सी ए
7	015079	श्री मधवेश पी	एफ सी ए	37	023638	श्री अम्मानगी यू जी	एफ सी ए
8	018066	श्री कृष्णा मूर्ति जी	ए सी ए	38	023784	श्री कोडाली हरेश बाबू	ए सी ए
9	018264	श्री मुर्धुजा ए सैयद	एफ सी ए	39	023826	श्री नागाराजन आर	एफ सी ए
10	018843	श्री सन्बाशिवा राव एस	एफ सी ए	40	023890	श्री वेन्कटेशन एम	ए सी ए
11	019004	श्री रामचन्द्रराही सी	एफ सी ए	41	023931	श्री अनन्था कृष्णन आर	ए सी ए
12	019217	श्री मुरली एन के	ए सी ए	42	023934	श्री सम्पथ कुमार पी बी	एफ सी ए
13	019261	श्री रमेश बाबू के	एफ सी ए	43	024137	श्री श्रीनिवासन एस	एफ सी ए
14	019626	श्री श्रीधरन पी	एफ सी ए	44	024145	श्री बालासुब्रामनीयन एम	ए सी ए
15	019737	श्री तिरुमाला राव एस	एफ सी ए	45	024147	कुमारी सुमाथी आर	ए सी ए
16	019863	श्री बालाजी जी एस	एफ सी ए	46	024160	श्री रंगन एन कनन	एफ सी ए
17	019950	श्री बासुदेवन ए एस	ए सी ए	47	024321	श्री जलालुद्दीन ए एम	एफ सी ए
18	020198	श्री सुब्बारतनम पी	ए सी ए	48	024463	श्री कनन बी	एफ सी ए
19	020642	श्री राघवन आर एस	ए सी ए	49	024575	श्री रवि एस	ए सी ए
20	020989	श्री कृष्णामूर्ति आर	एफ सी ए	50	024657	श्री सुब्रामनीयम वी एस वी	एफ सी ए
21	021375	श्री कृष्णन आर	एफ सी ए	51	024693	श्री थानाराज टॉनी जयन्त	ए सी ए
22	021569	श्री कृष्णासामी वी	ए सी ए	52	024781	श्री मूधू राजू एस	एफ सी ए
23	021983	श्री भवनानी टी रमेश	ए सी ए	53	024968	श्री रविचन्द्ररन एन	एफ सी ए
24	022100	श्री रगनाथन वी	ए सी ए	54	025060	श्री श्रीराम आर	एफ सी ए
25	022205	श्री श्रीनिवासन वी	ए सी ए	55	025641	श्री मोहन जे	एफ सी ए
26	022238	श्री मुरली कृष्णामूर्ति सी एच जी	एफ सी ए	56	025715	श्री मुरली टी एन	एफ सी ए
27	022347	श्री रामासुब्रामनीयन एस	ए सी ए	57	025996	श्री विश्वनाथन सी	ए सी ए
28	022475	श्री भारथन आर	ए सी ए	58	026003	श्री रविन्द्र कुमार एम	ए सी ए
29	022520	श्री शंकर आर	ए सी ए	59	026125	श्री पदमानाभान पी एम	ए सी ए
30	022775	श्री वेन्गोपाल एस	एफ सी ए	60	026153	श्री महेन्द्र कुमार एम	एफ सी ए

क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	विषय	क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	विषय
61	026445	कुमारी लक्ष्मी राजागोपालन	एफ सी ए	102	065221	श्री विनीत चतुर्वेदी	ए सी ए
62	026614	श्री श्रीधर ए	ए सी ए	103	071883	श्री भारत भूषण मितथल	एफ सी ए
63	026623	श्री राजावेलु एम एस	एफ सी ए	104	073178	श्री सरंगापानी सी एच	एफ सी ए
64	026786	श्री वरकेई एम कुरेन	एफ सी ए	105	080910	श्री सेमुलराज टी जेम्स	ए सी ए
65	026903	श्री सेकर टी एन	एफ सी ए	106	082105	श्री श्रीवास्तवा सत्या कुमार	ए सी ए
66	026960	श्री सथ्यामूर्ति आर	एफ सी ए	107	086277	श्री वाही अनिल	एफ सी ए
67	027122	श्री अशोक कुमार डी	ए सी ए	108	095854	श्री निर्वान महेश कुमार	ए सी ए
68	027421	श्री बीनू जेकोब कुरैन	ए सी ए	109	098953	कुमारी रजनी वी रमन	ए सी ए
69	027645	श्री बद्रीनाथ राव	एफ सी ए	110	102735	श्री भागवत सुबरया रामाकृष्णा	ए सी ए
70	027784	श्री शिवाराज एम	ए सी ए	111	108321	श्रीमति जालन कोमल नीरज	ए सी ए
71	028188	श्री कुमार जी एच एस	एफ सी ए	112	109726	श्री जॉनाथन अनचेन	ए सी ए
72	028215	श्री श्रीकान्थ ए	ए सी ए	113	113605	श्री अजय जैन	ए सी ए
73	028551	श्री वेद्यानाथ वी ए	एफ सी ए	114	113981	कुमारी नन्दिता शंकररमन	ए सी ए
74	028616	श्री प्रकाश रामा चन्द्ररन	एफ सी ए	115	115066	श्री मनीष भास्कर राव व्यावहरे	एफ सी ए
75	028795	श्री प्रसाद ए एस वी	ए सी ए	116	118087	श्री संजय वाधवानी	ए सी ए
76	028798	श्री पारथासार्थी आर	ए सी ए	117	200120	श्री सेलवा थीरावीयम एच	एफ सी ए
77	028944	श्री शेशाहदरी के	एफ सी ए	118	200201	श्री मधु सुधन पी	एफ सी ए
78	028965	श्री जितेन्द्र बाबू एम	एफ सी ए	119	200342	श्री पालानीयप्पन टी आर	एफ सी ए
79	029004	श्री शंकर एस मूर्ति	एफ सी ए	120	200348	श्री कृष्णा श्रीनिवासन	ए सी ए
80	029005	श्री थानीगए अरासू एस	एफ सी ए	121	200386	श्री श्रीधरन वी आर	एफ सी ए
81	029280	श्री विनोद	ए सी ए	122	200392	श्री सुब्रामनीयन के	ए सी ए
82	029283	श्री बालारमन के	ए सी ए	123	200500	श्री जॉन के अब्राहम	एफ सी ए
83	029352	श्री गोपीनाथ एन एल	ए सी ए	124	200588	श्री बालाजी पी बी	एफ सी ए
84	029358	श्री श्रीधरन आर	ए सी ए	125	200794	श्री गणेश उप्पाला	एफ सी ए
85	029499	श्री कानन एस	ए सी ए	126	200901	श्री शिवकुमार एस	ए सी ए
86	034238	श्री अशोक एस	ए सी ए	127	200943	श्री मुरली नारायणन वी आर	एफ सी ए
87	040217	श्री नागदा जयेश लक्ष्मीचन्द्र	एफ सी ए	128	201044	श्री गोपालकृष्णन वी	ए सी ए
88	042559	श्री इसरानी हिरेन हेमन	ए सी ए	129	201364	श्री एलेक्स पी अब्राहम	एफ सी ए
89	042703	श्री सुरेन्द्र कुमार घोष	ए सी ए	130	201380	श्री वेक्टा शेशाइह कोन्डामुरी	ए सी ए
90	043190	श्री गुरुदत्त कमलक्स शेनोए	ए सी ए	131	201561	श्री निर्मल कुमार एस एम	ए सी ए
91	045702	कुमारी कुलकर्णी सोनाली जी	ए सी ए	132	201568	श्री महादेवन जी	एफ सी ए
92	050359	श्री चट्टोपाध्या उदय शंकर	एफ सी ए	133	201633	श्री मनीवानन एस	ए सी ए
93	053929	श्री संजय सर्फ	एफ सी ए	134	201735	श्री शेक्कीजहर बी	एफ सी ए
94	056434	श्री पानी बसन्त कुमार	ए सी ए	135	201991	कुमारी रेवथी आर	ए सी ए
95	058039	कुमारी जयश्री मंत्री इशवरन	ए सी ए	136	202078	कुमारी इन्दू माधवन	एफ सी ए
96	058708	श्री कुमार घनश्याम	ए सी ए	137	202110	श्री श्रीनिवासाराधवन आर	ए सी ए
97	059552	श्री पान्डा चन्द्रमानी	एफ सी ए	138	202164	श्री शिवकुमार टी	ए सी ए
98	060256	श्री जैन सौरभ	ए सी ए	139	202175	श्री नारायणन एल	एफ सी ए
99	060466	श्री धीरज कुमार	ए सी ए	140	202214	श्री रामा राव माडीपाल्ली	एफ सी ए
100	060701	श्री अग्रवाल बिनय	ए सी ए	141	202249	श्री मुरलीधरन एस	ए सी ए
101	062864	श्री विजय कुमार जाम्मूला	ए सी ए	142	202271	श्री नन्दूरी वी एस एस गंगाराजू	ए सी ए



क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	विषय	क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	विषय
143	202341	श्री श्रीराम एस	एफ सी ए	185	208769	श्री कोथुरी रमेश	एफ सी ए
144	202373	श्री राजकुमार एम	ए सी ए	186	208804	श्री परमेशवरन पी एन	ए सी ए
145	202630	कुमारी भारथी के	ए सी ए	187	208805	श्री राम एन वी	ए सी ए
146	020796	श्री जलालुद्दीन एन मोहम्मद	एफ सी ए	188	208900	श्री अरविन्द के एस	ए सी ए
147	202963	श्री रामानाथ प्रभु एन	एफ सी ए	189	209038	श्री राजा राय	ए सी ए
148	202988	श्री रामकुमार एस	ए सी ए	190	209068	श्री कालप्पा के के	ए सी ए
149	203067	श्री राजन एन	एफ सी ए	191	209343	श्री चन्द्ररा प्रकाश जी एन	ए सी ए
150	203427	श्री नागेश्वरा राव एस	एफ सी ए	192	209355	श्री मोहम्मद अब्दुल खाययुम	ए सी ए
151	203468	श्री हुस्सैनी एस एम	ए सी ए	193	209438	श्री संजय राज जैन आर	एफ सी ए
152	203603	श्री रामाचन्द्रन डी	ए सी ए	194	209728	श्री वेनुमानी ए	ए सी ए
153	204055	श्री सुब्रामनीयन के एस	ए सी ए	195	209751	कुमारी नागालक्ष्मी एन	ए सी ए
154	204067	श्री सत्याकान्थ ए	एफ सी ए	196	209777	श्री नरसिम्हा टी वी	ए सी ए
155	204430	श्री सतीश के	ए सी ए	197	209849	श्री रामासेशन पी आर	ए सी ए
156	204611	श्री श्रीराम एस	ए सी ए	198	209987	कुमारी निथया निरूपमा बी	ए सी ए
157	204678	कुमारी स्नेहा पी ए	ए सी ए	199	209995	श्री भुपेन्द्र अग्रवाल	एफ सी ए
158	204759	कुमारी उषा बाई एम आर	एफ सी ए	200	210016	श्री चन्द्रा शेखर रेड्डी जी	एफ सी ए
159	204911	कुमारी एनजलाइन एनोक	ए सी ए	201	210135	श्री कुमार एस	ए सी ए
160	204960	श्री स्वामीनाथन आर	ए सी ए	202	210161	श्री रवि शंकर वी	एफ सी ए
161	204983	श्री विदनन्दा उर्स बी जी	एफ सी ए	203	210171	कुमारी अनुराधा कासराबाडा	एफ सी ए
162	205045	श्री बालाजी आर	ए सी ए	204	210243	कुमारी कीर्तिमालिनी निलेकर	ए सी ए
163	205120	श्री रामाना रेड्डी पी वी	ए सी ए	205	210320	श्री रिषि मेहरा	ए सी ए
164	205306	श्री गोपाला राजू बी आर	ए सी ए	206	210388	श्री मनोज पी जॉसफ	ए सी ए
165	205512	श्री अधिकारी मोहन राव	ए सी ए	207	210444	श्री श्रीनिवासन जी	ए सी ए
166	205605	श्री पारस कुमार पी	एफ सी ए	208	210453	श्री मंगेश गोविन्द देसाई	ए सी ए
167	205673	श्री वैक्टा रमन के	एफ सी ए	209	210454	श्री उदयप्पन एस पी	ए सी ए
168	205838	श्री सेलवारण एल	ए सी ए	210	210557	श्री वैक्टेश्वरलू कोमरु	ए सी ए
169	205994	श्री मुरली कृष्णन टी एन	ए सी ए	211	210566	श्री मुरली कृष्णा सी	ए सी ए
170	206312	श्री श्रीनिवासन के	एफ सी ए	212	210740	कुमारी अनिता वी	ए सी ए
171	206643	कुमारी हरिथा वी	एफ सी ए	213	210828	श्री श्रीनिवासन एस	ए सी ए
172	207062	श्री रमेश जी	ए सी ए	214	210936	कुमारी भुवनेश्वरी एम	ए सी ए
173	207209	श्री नवनीथा कृष्णन एस	ए सी ए	215	211076	कुमारी पार्वथावर्धनी एन	ए सी ए
174	207502	श्री मनीसुन्दरम एस वी	ए सी ए	216	211099	श्री सुरेश कुमार वी	ए सी ए
175	207587	श्री आनन्दा कुमार एच आर	ए सी ए	217	211106	श्री आनन्द मंत्री	ए सी ए
176	207588	श्री सेययद मोहम्मद ईस्माईल	ए सी ए	218	211112	श्री महालिंगम वी	ए सी ए
177	207613	श्री वैक्टा राव नारने	ए सी ए	219	211169	श्री तुरलापति किरण कुमार	ए सी ए
178	207731	कुमारी नागापार्वथी एन	ए सी ए	220	211218	कुमारी प्रिया रामाचन्द्रन	ए सी ए
179	207981	श्री शंकर सतीश के	ए सी ए	221	211223	कुमारी प्रिथा सुसन फिलिप	ए सी ए
180	208154	श्री वैक्टा रमनन आर	ए सी ए	222	211393	श्री विन्स्टोन मोरेस ए	ए सी ए
181	208446	कुमारी सरिथा एम	ए सी ए	223	211487	श्री पुट्टा वैक्टेश्वरलू	ए सी ए
182	208475	श्री किरुबमानी ए	एफ सी ए	224	211498	श्री स्टीफन गनानासेकरन एस	ए सी ए
183	208478	श्री नटराजन एस	ए सी ए	225	211536	श्री श्रीधर अन्थावराप्पू	ए सी ए
184	208503	श्री मीनाक्षीसुन्दरम वी	ए सी ए	226	211596	श्री सत्यनारायणन बारातम	ए सी ए

क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	विषय	क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	विषय
227	211664	कुमारी कोमाथी के	ए सी ए	268	215602	श्री रामाकृष्णन के एम	ए सी ए
228	211701	श्री वेनूगोपाल कृष्णा एच	ए सी ए	269	215666	श्री सतीष पशुलेति	ए सी ए
229	211801	श्री सेशाद्रीनाथन के आर	ए सी ए	270	215732	श्री जयादेव के	ए सी ए
230	211849	श्री श्रीवत्सन पी बी	ए सी ए	271	215734	कुमारी अरपना केडिया	ए सी ए
231	211890	श्री कार्तिक सी	ए सी ए	272	215773	श्री दनुजया ए	ए सी ए
232	211898	श्री शिन्नु थोमस वर्सेस	ए सी ए	273	215828	श्री नवीन बी	ए सी ए
233	211964	श्री वेंकट भारदाज के	ए सी ए	274	215904	कुमारी गौरी के	ए सी ए
234	212040	कुमारी रमया एस	ए सी ए	275	216098	श्री सुरेश एस	ए सी ए
235	212266	श्री चन्दन मोहापात्रा	ए सी ए	276	216166	श्री बाहुबली पृथ्वीराज	ए सी ए
236	212482	श्री ब्रह्माजी गुप्ता गुल्लापुडी	ए सी ए	277	216177	श्री गोकुलदास पाई एच	ए सी ए
237	212494	श्री रामकुमार के	ए सी ए	278	216182	श्री मोहन बी	ए सी ए
238	212660	श्री संतोष कुमार एम	ए सी ए	279	216244	श्री दयानिवास शर्मा	ए सी ए
239	212673	कुमारी लक्ष्मी दुग्गीशेट्टी	ए सी ए	280	216280	श्री बोब्बा गोकुल	ए सी ए
240	212681	श्री शानमुराराज पी	ए सी ए	281	216388	श्री सुजीत पोखरेल	ए सी ए
241	212847	श्री किरण जॉसफ	ए सी ए	282	216469	श्री रोहित टी	ए सी ए
242	213020	कुमारी अंजू मैथ्यू	ए सी ए	283	216490	श्री सथीश जी	ए सी ए
243	213153	श्री राजू एम पल्लन	ए सी ए	284	216608	श्री अलफ्रेड थोमस	ए सी ए
244	213180	श्री चालापथि वी वी एस	ए सी ए	285	216732	श्री सुदर्शन एम	ए सी ए
245	213190	श्री मुरली कृष्णा वी	ए सी ए	286	216744	श्री चन्द्ररा शेखर गोल्ला	ए सी ए
246	213324	कुमारी राजालक्ष्मी सी	ए सी ए	287	216774	श्री अरविन्द बाबू गरिकापति	ए सी ए
247	213521	श्री प्रवीन कुमार मयनमपति	ए सी ए	288	216782	श्री सुब्बा रायुदु गन्ती	ए सी ए
248	213673	कुमारी भामिनी जी एस	ए सी ए	289	216820	श्री विजय कुमार डी	ए सी ए
249	213685	श्री संतोष कुमार	ए सी ए	290	216827	कुमारी कोथूर अर्पणा	ए सी ए
250	213730	कुमारी पाविथरा आर	ए सी ए	291	216877	कुमारी अर्पणा एस	ए सी ए
251	214245	श्री राब्बी मेमोनिडेस कश्यप	ए सी ए	292	216928	श्री रामा नागा सम्बाशिवा राव सन्का	ए सी ए
252	214371	कुमारी वसुन्धरा आर	ए सी ए	293	217160	श्री रामा रवि शंकर रेड्डी आर	ए सी ए
253	214598	श्री विनोद कुमार वी	ए सी ए	294	217218	श्री रवि कुमार वी	ए सी ए
254	214622	श्री प्रशांत जैन	ए सी ए	295	217235	श्री विनय एस नायर	ए सी ए
255	214642	श्री चन्द्रामौली वी	ए सी ए	296	217244	श्री श्रीरेश प्रकाश	ए सी ए
256	214658	श्री नन्दन एल सास्त्री	ए सी ए	297	217296	श्री जगन्नाथ पात्रा	ए सी ए
257	214926	श्री अभीजीत श्रीनिवासन	ए सी ए	298	217359	श्री किस्लया श्रीवास्तव	ए सी ए
258	214938	श्री रविन्द्र के एस	ए सी ए	299	217407	कुमारी राधिका प्रगलापति	ए सी ए
259	214959	श्री रघुनाथन एस	ए सी ए	300	217462	श्री दास रमेश चन्दरा	ए सी ए
260	215108	श्री राम प्रसाद भट्ट एम	ए सी ए	301	217494	श्री वेंकटेश प्रभु	ए सी ए
261	215240	श्री राजा शेखर ईथा	ए सी ए	302	217531	श्री अन्वित कुमार सी शाह	ए सी ए
262	215261	श्री वेंकट सुगुना श्री नन्दुला	ए सी ए	303	217563	श्री रोशन पोखरेल	ए सी ए
263	215278	कुमारी सविश कुमार	ए सी ए	304	217578	श्री वीरग गोदून रेड्डी वी	ए सी ए
264	215339	कुमारी साराह झचाराह	ए सी ए	305	217584	श्री एड्कोन्डालू पी	ए सी ए
265	215416	श्री उमा शंकर पेट्टे के	ए सी ए	306	217599	श्री प्रताप रेड्डी के	ए सी ए
266	215457	श्री सुभाष चन्द्र नरेल्ला	ए सी ए	307	217652	कुमारी शामीमा नशरीन	ए सी ए
267	215513	श्री गौधी बिल्लापति एस एस	ए सी ए	308	217658	कुमारी अमनिक तलवार	ए सी ए

क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	विषय	क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	विषय
309	217745	श्री अमरेश नाथ वी	ए सी ए	326	218858	कुमारी गंगा बी	ए सी ए
310	217796	श्री अरुण के एम	ए सी ए	327	218908	कुमारी रेखा ए आर	ए सी ए
311	217807	कुमारी दानालक्ष्मी आर डी	ए सी ए	328	219006	कुमारी वासवी एल	ए सी ए
312	217864	श्री शिवा रामा कृष्णा रेड्डी मेडापति	ए सी ए	329	219064	श्री राजेश के	ए सी ए
313	217883	श्री उदय कुमार रेड्डी कोवुरु	ए सी ए	330	219074	कुमारी मंजू बिककीना	ए सी ए
314	217930	श्री सनील चाको	ए सी ए	331	219098	श्री रमेश ए	ए सी ए
315	217984	श्री कोटेश्वरा राव पासुमारली	ए सी ए	332	219102	श्री जैस थोमस	ए सी ए
316	218000	श्री सेन्थिलकुमार ए	ए सी ए	333	219132	श्री किरण फिलिप	ए सी ए
317	218148	श्री रविन्द्रनाथ रेड्डी आर	ए सी ए	334	219141	कुमारी मधुरिमा एस	ए सी ए
318	218291	श्री उन्नी पी के	ए सी ए	335	219239	कुमारी विद्यु जैन	ए सी ए
319	218297	श्री चेतन कुमार कबरा	ए सी ए	336	403329	श्रीमति सेठ काजल	ए सी ए
320	218364	श्री सत्यानारायण बाबू एम वी	ए सी ए	337	404071	कुमारी महेशवरी अम्मुदीप	ए सी ए
321	218438	श्री अविनाश सुभाष बालिगर	ए सी ए	338	404967	श्री वैश्रव हरिश कुमार	ए सी ए
322	218452	श्री संतोष ए एल	ए सी ए	339	405648	कुमारी रुचि भारगवा	ए सी ए
323	218460	कुमारी सुभा आर	ए सी ए	340	502037	श्री अग्रवाल मनोज कुमार	ए सी ए
324	218567	कुमारी अलकनंदा गुप्ता	ए सी ए	341	503323	श्री पनजेला प्रवीन्द्र सिंह	ए सी ए
325	218773	श्री राजकुमार शंकराप्पा भद्रानावर	ए सी ए	342	509360	श्री नीरज चौधरी	ए सी ए

टी. कार्तिकेयन  
सचिव

3 एस्.सी.ए.(5)/2/2007-2008: इस संस्थान की अधिसूचना सं 3 एस्.सी.ए.(4)/10/83-84 दिनांक 31 मार्च 1984 3 एस्.सी.ए.(4)/8/87-88 दिनांक 30 दिसम्बर 1987, 3 एस्.सी.ए.(4)/18/87-88 दिनांक 31 मार्च 1988, 3 एस्.सी.ए.(4)/10/88-89 दिनांक 27 जनवरी 1989, एस्.सी.ए.(4)/3/89-90 दिनांक 7 जुलाई 1989, 3 एस्.सी.ए.(4)/12/89-90 दिनांक 25 अक्टूबर 1989, 3 एस्.सी.ए.(4)/8/90-91 दिनांक 1 दिसम्बर 1990, 3 एस्.सी.ए.(4)/9/91-92 दिनांक 1 जनवरी 1992, 3 एस्.सी.ए.(4)/3/93-94 दिनांक 11 जनवरी 1994, 3 एस्.सी.ए.(4)/4/94-95 दिनांक 22 फरवरी 1995, 3 एस्.सी.ए.(4)/5/95-96 दिनांक 12 मार्च 1996, 3 एस्.सी.ए.(4)/5/96-97 दिनांक 7 अप्रैल 1997, 3 एस्.सी.ए.(4)/3/97-98 दिनांक 31 मार्च 1998, 3 एस्.सी.ए.(4)/4/1998-99 दिनांक मई 7 1999, 3 एस्.सी.ए.(4)/4/1999-2000 दिनांक 17 अप्रैल 2000, 3 एस्.सी.ए.(4)/5/2000-2001 दिनांक 12 दिसम्बर 2001, 3 एस्.सी.ए.(4)/5/2001-2002 दिनांक 21 मई 2002, 3 एस्.सी.ए.(4)/4/2002-2003 दिनांक 30 अप्रैल 2003, 3 एस्.सी.ए.(4)/4/2003-2004 दिनांक 23 अगस्त 2004 3 एस्.सी.ए.(4)/5/2004-2005 दिनांक 7 जुलाई अगस्त 2006, 3 एस्.सी.ए.(4)/3/2005-2006 दिनांक 29 अगस्त 2007 और 3 एस्.सी.ए.(4)/3/2006-2007 दिनांक 30 मई 2008 के संदर्भ में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अधिनियम की 1988 के अधिनियम 20 के अनुसरण करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि चार्टर्ड लेखाकार अधिनियम की धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्था परिषद ने अपने सदस्यों से निम्नलिखित सदस्यों के नाम आगे की गई तिथियों से पुनः स्थापित कर दिये हैं

क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	विषय	पुनः स्थापन की तिथि	क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	विषय	पुनः स्थापन की तिथि
1	4485	श्री सुभाषराज एम एन	ए सी ए	05/09/2007	27	20224	श्री जीर्ज सटेफन जे	ए सी ए	27/08/2007
2	6763	श्री आनन्द राव वी	एफ सी ए	12/12/2007	28	20475	श्री जॉन के एम	ए सी ए	01/08/2007
3	12821	श्री कणासम्पति डी	ए सी ए	23/04/2007	29	20871	श्री सुभा राव पेन्डेसा देव्य	ए सी ए	13/07/2007
4	13079	श्री सत्य कुमार एस एस	ए सी ए	10/07/2007	30	21087	श्री श्रीनाथ वी	एफ सी ए	11/03/2008
5	13429	श्री रामनाथन के	एफ सी ए	05/04/2007	31	21111	श्री धरुमन एस	एफ सी ए	22/06/2007
6	14224	श्री शानमा नन्जप्पा	ए सी ए	09/10/2007	32	21294	श्री अज्जामन कैरियन	एफ सी ए	04/01/2008
7	14292	श्री गोपाल दास वी	एफ सी ए	08/11/2007	33	21795	श्री रघुनाथ वी एन	एफ सी ए	23/07/2007
8	15035	श्री पान्कू रंगा राव के	ए सी ए	12/03/2007	34	22159	श्री सुब्रह्मणीयन वी	ए सी ए	10/09/2007
9	15804	श्री श्रीधर जी आर	ए सी ए	10/05/2007	35	22319	श्री देव्य वी एस	ए सी ए	20/09/2007
10	15906	श्री सुभाषराज राव	ए सी ए	12/11/2007	36	22908	श्री रामाचन्द्रन जी	ए सी ए	14/08/2007
11	16190	श्री विश्वनाथ दास एन	ए सी ए	20/04/2007	37	22997	श्री अनन्धारमन के आर	ए सी ए	04/08/2007
12	16311	श्री नाथीययन एमआर	एफ सी ए	10/08/2007	38	23016	श्री भारथ पी वी	ए सी ए	13/09/2007
13	17239	श्री महादेवन एस	ए सी ए	10/07/2007	39	23017	श्री सेलवाथनी सीटी	ए सी ए	21/08/2006
14	18020	श्री श्रीमन नारायण चौधरी के	ए सी ए	12/06/2007	40	23482	श्री राजाशेखर के यू	ए सी ए	26/04/2007
15	18288	श्री शंकर वी	ए सी ए	05/11/2007	41	23508	श्री विश्वनेश्वर एन	एफ सी ए	29/06/2007
16	18452	श्री मधु एन	ए सी ए	19/09/2007	42	23511	श्री मैथ्यू सैमीयन एम	एफ सी ए	19/04/2007
17	18621	श्री सेयद मोहम्मद अजमल	ए सी ए	27/07/2007	43	23983	श्री मुधु एन के	एफ सी ए	10/04/2007
18	18691	श्री श्रीराम जे	एफ सी ए	17/04/2007	44	23980	श्री सश्रीकुमार एन आर	ए सी ए	14/12/2007
19	18718	श्री सोमाशेखरन पी एस	ए सी ए	19/09/2007	45	24325	श्री विजया कृष्णन आर	एफ सी ए	16/05/2007
20	19115	श्री रामा मुर्ति राव वी	ए सी ए	09/03/2007	46	24385	श्री अरुमुगम वी एम	एफ सी ए	24/08/2007
21	19157	श्री सनकराज जे	ए सी ए	14/05/2007	47	24405	श्री गुरुनाथन एस वी	ए सी ए	26/07/2007
22	19504	श्री श्रीनिवासन आर	ए सी ए	04/06/2007	48	24573	श्री जीव जीसफ	ए सी ए	31/10/2007
23	19527	श्री शेखर के सी	एफ सी ए	05/03/2008	49	24621	श्री बापूजी एन	ए सी ए	19/04/2007
24	19536	श्री सनका रामगोपाल	एफ सी ए	16/04/2007	50	24680	श्री कोटुकुला लक्ष्मी मोहन राव	ए सी ए	17/07/2007
25	19947	श्री रामनाथन आर	ए सी ए	19/08/2007	51	24885	कुमारी वासवी पेंलस टी	ए सी ए	13/02/2007
26	20222	श्री सुन्दरराज आर	ए सी ए	01/04/2007	52	25254	श्री श्रीराम वी	एफ सी ए	07/11/2007

क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	विषय	पु नः स्थापन की तिथि	क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	विषय	पु नः स्थापन की तिथि
53	25270	श्री कोडानंदरम सास्त्री जे	एफ सी ए	11/06/2007	92	49960	श्री जतर राजेन्द्ररा भालचन्द्ररा	ए सी ए	18/07/2007
54	25364	श्री विजया भास्कर राव पी	ए सी ए	03/08/2007	93	51198	श्री पटोडिया सुनील कुमार	एफ सी ए	24/05/2007
55	25417	श्री वसन्धकृष्णन टी आर	एफ सी ए	15/06/2007	94	52015	श्री आदिनारायण वेक्केश	ए सी ए	16/11/2007
56	25737	श्री अचुदूनी बालाजी	एफ सी ए	05/03/2007	95	54895	श्री दुर्गावजूला शिवजी	ए सी ए	10/03/2008
57	25822	कुमारी ज्योति राव के	ए सी ए	28/02/2008	96	55061	श्री राजीव कुमार चतुर्वेदी	ए सी ए	16/07/2007
58	25877	श्री सुब्बा राव एम	एफ सी ए	30/07/2007	97	57361	श्री बेनर्जी सुकान्ता	ए सी ए	30/05/2007
59	25991	श्री शिवासुब्बामनीयन आर	एफ सी ए	21/05/2007	98	59139	श्री सिंह विजय विक्रम	ए सी ए	24/09/2007
60	26205	श्री बाबू वी जे	एफ सी ए	29/05/2007	99	59343	कुमारी महेशवरी भावना	ए सी ए	05/09/2007
61	26467	श्री रामाकृष्णा बी	एफ सी ए	10/10/2007	100	59998	श्री जैन नदिन	ए सी ए	03/07/2007
62	27082	श्री साई कृष्णन आर	एफ सी ए	15/10/2007	101	60299	कुमारी श्रीविद्या राजन	ए सी ए	27/06/2007
63	27092	कुमारी चित्रा प्रसाद	ए सी ए	11/09/2007	102	70181	श्री एलेक्स जॉसे	एफ सी ए	22/10/2007
64	27340	श्री रविशंकर टी	एफ सी ए	20/08/2007	103	73140	श्री सुरेश राव वी आर	एफ सी ए	19/11/2007
65	27378	श्री मुरली एस एस	एफ सी ए	20/04/2007	104	77077	श्री भन्डारी हेमन्त	एफ सी ए	11/10/2007
66	27474	श्री विजय कुमार सास्त्री के एस	एफ सी ए	14/01/2008	105	77433	श्री दीपक खेतन	ए सी ए	03/09/2007
67	27599	श्री बर्धाराजन एस	ए सी ए	25/02/2008	106	83378	श्री चौपडा हिरदेश	एफ सी ए	01/10/2007
68	27831	श्री चन्द्ररा शेखरन एस	ए सी ए	16/11/2007	107	84991	श्री बगा अमर जीत सिंह	एफ सी ए	05/06/2007
69	27988	श्री रमेश के आर	ए सी ए	04/01/2008	108	86300	श्री सलीम के	एफ सी ए	19/06/2007
70	28119	श्री जयकुमार सी	ए सी ए	05/06/2007	109	87790	श्री नटराजन सुपराजा	ए सी ए	10/09/2007
71	28127	श्री कृष्णा कुमार सी एच	एफ सी ए	06/02/2008	110	90976	श्री कृष्णन आर	ए सी ए	26/06/2007
72	28169	श्री रविन्द्रन आर	ए सी ए	25/05/2007	111	98006	श्री मनोज राव लाडी	ए सी ए	20/04/2007
73	28228	श्री नारायण बी जी	ए सी ए	02/01/2008	112	98328	कुमारी जयालक्ष्मी सी	ए सी ए	23/05/2007
74	28245	श्री बालाकृष्णन टी आर	ए सी ए	20/02/2008	113	100137	कुमारी वैशाली पन्थारिनाथ पाटिल	ए सी ए	25/04/2007
75	28425	श्री गोविन्दराजन जे	एफ सी ए	13/11/2007	114	105147	श्री राजगारा सोहेल युसफ	ए सी ए	18/05/2007
76	28474	श्री रवि टी एन सी	ए सी ए	17/12/2007	115	109826	श्री अमित गुप्ता	ए सी ए	25/04/2007
77	28567	श्री कृष्णा मुर्ति एम	एफ सी ए	22/05/2007	116	113471	श्रीमति स्वाति सिद्धार्थ मितल	ए सी ए	02/11/2007
78	28675	श्री बर्धाराजन एस	ए सी ए	13/09/2007	117	114346	कुमारी मंजू क्रिसटोफर	ए सी ए	03/09/2007
79	29011	श्री सुरेश आर	ए सी ए	24/01/2008	118	116054	श्रीमति अनुजा जयन्त रामवासी	ए सी ए	07/05/2007
80	29216	श्री जॉय के एम	ए सी ए	01/04/2007	119	117124	श्री मोहम्मद यासिर	ए सी ए	28/09/2007
81	29269	श्री रामानाथन एस	ए सी ए	17/08/2007	120	121865	श्रीमति आरती गुप्ता	ए सी ए	27/04/2007
82	29566	श्री जेकोब मैथ्यूस	एफ सी ए	04/05/2006	121	200002	श्री बालाकृष्णन एच	ए सी ए	06/03/2008
83	29729	श्री प्रभाकरन के सी	ए सी ए	04/07/2007	122	200013	श्री रामासामी बी	ए सी ए	10/12/2007
84	29907	श्री चन्द्रराशेखर के	ए सी ए	08/10/2007	123	200081	कुमारी गीता रामानाथन	एफ सी ए	25/05/2007
85	29967	श्री कृष्णन बी	ए सी ए	10/05/2007	124	200730	श्री थोमस एन अब्राहम	ए सी ए	04/05/2007
86	30298	श्री सुकुमार कुरुगनती	ए सी ए	26/7/2007	125	200790	श्री जॉसफ पी मैथ्यू	ए सी ए	18/08/2006
87	31292	श्री रवि महालिंगम अयर	एफ सी ए	04/07/2007	126	200807	श्री रमेश कृष्णन एल	ए सी ए	04/12/2007
88	32349	श्री शिवराम आर	ए सी ए	25/05/2007	127	201034	श्री बद्रीनारायणन के एस	ए सी ए	09/05/2007
89	35896	श्री नटराजन आर	ए सी ए	14/03/2008	128	201326	श्री श्रीनिवास सिंगा राजू काकरलापूडी	ए सी ए	01/02/2008
90	39594	श्री देवेन्द्र प्रसाद अमेता	एफ सी ए	07/01/2008	129	201482	श्री अब्राहम वी वरकेई	ए सी ए	14/05/2007
91	48581	श्री त्रिवेदी धावल कानूभाई	ए सी ए	23/05/2007	130	201664	श्री कुमार आर	एफ सी ए	25/06/2007

क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	विषय	पु नः स्थापन की तिथि	क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	विषय	पु नः स्थापन की तिथि
131	201784	श्री वर्धाराजन एस	ए सी ए	23/04/2007	171	205060	श्री विजयानन्द राव साना	एफ सी ए	13/09/2007
132	202053	श्री प्रसाद नेक्काडापू वीएसएल	एफ सी ए	21/05/2007	172	205122	श्री गोपालकृष्णन एस	ए सी ए	15/11/2007
133	202099	श्री श्रीराम कुमार एन	ए सी ए	16/08/2007	173	205249	श्री श्रीनिवासन पी वी	ए सी ए	30/04/2007
134	202104	श्री सुधीश बाबू सी	ए सी ए	11/12/2007	174	205336	कुमारी विनूथा जे शेट्टी	ए सी ए	28/12/2007
135	202115	श्री रविचन्द्रन एल	ए सी ए	28/06/2007	175	205387	श्री शेक अब्दुल फरीद एस	ए सी ए	25/05/2007
136	202201	कुमारी धनलक्ष्मी	ए सी ए	10/03/2008	176	205586	श्री कानन पी वी	एफ सी ए	22/02/2008
137	202478	श्री गोपाल सी पी	ए सी ए	03/07/2007	177	205595	कुमारी कविथा सुब्रमनीयन	ए सी ए	29/08/2007
138	202493	श्री राजाबहादुर एस आर के जी के एस	ए सी ए	15/02/2008	178	205722	श्री वर्धाराजन के	ए सी ए	07/05/2007
139	202676	श्री अश्वथ ए	ए सी ए	18/12/2007	179	205743	श्री बालाजी आर	एफ सी ए	03/03/2008
140	202699	श्री रविचन्द्रन वी	ए सी ए	15/11/2007	180	205877	कुमारी मनीषा गुप्ता	ए सी ए	13/06/2007
141	202721	श्री धायगाराजूलू डी	ए सी ए	31/01/2008	181	205887	श्री वैक्टा रामन आर	एफ सी ए	21/06/2007
142	202786	कुमारी जिज्ञा एच	एफ सी ए	10/08/2007	182	205918	श्री बालाजी आर	ए सी ए	18/04/2007
143	202956	श्री गोपीनाथन सी	ए सी ए	26/07/2007	183	205923	कुमारी हेमालथा आर	ए सी ए	11/04/2007
144	202985	श्री सुन्दर राजन पी बी	एफ सी ए	16/08/2007	184	205973	कुमारी काटगेरी स्वपना गोपालराव	ए सी ए	24/07/2007
145	203026	श्री राजालक्ष्मी एन	ए सी ए	17/05/2007	185	206139	श्री पाब्बाशेट्टी शंकरनाथ	ए सी ए	13/04/2007
146	203059	कुमारी देवी एस	एफ सी ए	21/01/2008	186	206170	श्री मधवन आर	ए सी ए	03/08/2007
147	203523	श्री थोमस पी ए	ए सी ए	20/04/2007	187	206195	श्री सुघेष सी एम	ए सी ए	07/11/2007
148	203533	श्री बीजू वरगेश थोमस	ए सी ए	10/01/2008	188	206249	श्री वैक्टेस पी ए	एफ सी ए	29/10/2007
149	203593	कुमारी कामीनी शाह	ए सी ए	06/03/2008	189	206306	श्री बीजू जॉसे थोमस	ए सी ए	26/04/2007
150	203681	श्री देवानन्दा	ए सी ए	16/05/2007	190	206348	श्री अनन्दा नारायणन जी	ए सी ए	14/06/2007
151	203799	कुमारी रामा के	ए सी ए	26/11/2007	191	206661	श्री रामाचन्द्रन के हेगडे	ए सी ए	24/05/2007
152	203838	कुमारी कंचना एस	एफ सी ए	03/04/2007	192	206851	श्री मुंगला कृष्णा	ए सी ए	04/06/2007
153	203888	श्री वेक्टेसवरालू ए	ए सी ए	14/08/2007	193	207208	कुमारी अनिता कुमारी एस	ए सी ए	11/06/2007
154	203928	श्री गोकुल चन्द्रा डी	ए सी ए	06/11/2007	194	207213	श्री पुरुषोत्थामन एस	ए सी ए	16/08/2007
155	204090	श्री श्रीनिवासन आर	ए सी ए	29/01/2008	195	207367	कुमारी लवली जॉन	ए सी ए	07/08/2007
156	204130	श्री शिवारामकृष्णन सी एल	ए सी ए	26/11/2007	196	207414	श्री कुमार जे एस	एफ सी ए	22/06/2007
157	204178	श्री सुन्दर आर	ए सी ए	27/08/2007	197	207563	श्री बालागणेश के	ए सी ए	26/03/2007
158	204281	श्री वेनू मथावा के	ए सी ए	25/08/2007	198	207854	कुमारी मोनिका राव	ए सी ए	24/04/2007
159	204284	श्री ओम प्रकाश बी आर	ए सी ए	13/09/2007	199	208067	श्री तूमारडा नरसिहमा मूर्ति	एफ सी ए	20/03/2008
160	204344	श्री हरिमरन एन के	ए सी ए	02/07/2007	200	208086	श्री रादेश कृष्णा एस	ए सी ए	15/06/2007
161	204494	श्री रविन्द्रनाथ सी एच	ए सी ए	06/12/2007	201	208285	कुमारी अंजू मरियम थोमस	ए सी ए	04/04/2007
162	204505	श्री रविकुमार आर	ए सी ए	20/09/2007	202	208288	श्री जूडे बी	ए सी ए	18/06/2007
163	204506	कुमारी संगीता रविकुमार	ए सी ए	20/09/2007	203	208321	श्री रवि आर टी	एफ सी ए	20/12/2007
164	204551	श्री रविन्द्रा रेड्डी वी	एफ सी ए	11/02/2008	204	208341	श्री सत्या साई बाबू जी	ए सी ए	16/07/2007
165	204673	श्री मुरलीधरन एस वी एस	ए सी ए	17/02/2008	205	208391	श्री रघुकुमार पी	ए सी ए	21/08/2007
166	204677	श्री विजयकृष्णन टी एस	ए सी ए	30/05/2007	206	208412	श्री सेन्थिलकुमारन एस जे	ए सी ए	09/08/2007
167	204730	श्री मुरलीधरण ए के	ए सी ए	17/03/2008	207	208447	कुमारी नीताअदयानथाया एच	ए सी ए	24/07/2007
168	204740	कुमारी भानूमति एस	ए सी ए	31/05/2007	208	208517	श्री पेडीया नायडू पाडूरी	ए सी ए	09/07/2007
169	204799	श्री कुमार जी	ए सी ए	10/08/2007	209	208624	श्री जीता बद्रीनाथ	ए सी ए	27/08/2007
170	204856	श्री गणेश रमन अर्जुला जी	ए सी ए	17/10/2007	210	208910	श्री अलापति एस पी प्रसाद	एफ सी ए	14/12/2007

क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	विषय	पु नः स्थापन की तिथि	क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	विषय	पु नः स्थापन की तिथि
211	208926	श्री अशोक कुमार एन	ए सी ए	03/05/2007	246	211313	श्री संत कुमार आर	ए सी ए	18/07/2007
212	208963	श्री वैक्कनारायण यक्कान्ती	ए सी ए	03/08/2007	247	211338	श्री पवन कुमार रेड्डी बी	ए सी ए	12/04/2007
213	208993	श्री श्रीनिवासन एन	ए सी ए	14/09/2007	248	211410	कुमारी कर्तिका वी	ए सी ए	05/09/2007
214	209001	श्री सिथिकी पी के	ए सी ए	08/10/2007	249	211431	श्री सुधीर आर	ए सी ए	13/03/2008
215	209100	श्री नागभूषणा रेड्डी बी	ए सी ए	21/09/2007	250	211449	श्री रत्नाकर टनकला	ए सी ए	12/06/2007
216	209162	श्री प्रसाद एच एस	ए सी ए	21/05/2007	251	211488	श्री अजय आर जे	ए सी ए	29/05/2007
217	209251	श्री श्रीनिवासा रेड्डी टी	ए सी ए	20/08/2007	252	211521	श्री आजम नवाज शरीफ	ए सी ए	05/07/2007
218	209294	श्री रामनाथन एन बी	ए सी ए	06/08/2007	253	211683	श्री गंगाधरण बी	ए सी ए	14/08/2007
219	209333	कुमारी विद्या जी	ए सी ए	09/04/2007	254	211923	श्री मलिकअर्जुना आर	ए सी ए	27/03/2007
220	209355	श्री मोहम्मद अब्दुल खायुम	ए सी ए	30/03/2007	255	211999	श्री राजारमन जी	ए सी ए	11/12/2007
221	209517	श्री सुधीनद्रा कुमार जी	ए सी ए	18/06/2007	256	212168	श्री सुधीर कुमार जी	ए सी ए	26/06/2007
222	209528	श्री श्रीनिवासन आर	ए सी ए	08/10/2007	257	212227	श्री आनन्द वी सुब्रामनीयम	ए सी ए	01/10/2006
223	209566	कुमारी नन्धीनी एस	ए सी ए	27/08/2007	258	212320	श्री प्रभु विनायक वारदाराज	ए सी ए	31/03/2008
224	209646	कुमारी शुभा एस	ए सी ए	04/05/2007	259	212352	कुमारी संध्या बी एस	ए सी ए	22/05/2007
225	209898	श्री मोहम्मद अफजल खान	ए सी ए	20/06/2007	260	212464	कुमारी सुजाता पी	ए सी ए	14/05/2007
226	209964	कुमारी विद्या बी	ए सी ए	05/11/2007	261	212496	श्री अर्जुन सारथी आर एस	ए सी ए	01/10/2007
227	210138	श्री सौंदर राज सी	ए सी ए	11/05/2007	262	212534	श्री सधीश आर	ए सी ए	15/05/2007
228	210153	कुमारी मानवी केला	ए सी ए	18/06/2007	263	212564	श्री देवाए एम सी	ए सी ए	18/04/2007
229	210157	श्री फेज मयालाकर	ए सी ए	29/10/2007	264	212572	श्री बालासुब्रामनीयन के	ए सी ए	19/07/2007
230	210262	श्री जोमोन जॉर्ज	ए सी ए	10/07/2007	265	212649	श्री लक्ष्मी नारायण डी	ए सी ए	19/09/2007
231	210264	कुमारी रेशमा मालवाही	ए सी ए	27/03/2007	266	212652	श्री प्रेम कुमार के	ए सी ए	04/10/2007
232	210346	श्री सुजीत कुमार एम	ए सी ए	26/10/2007	267	212675	श्री श्रीनिवासन पी	ए सी ए	24/09/2007
233	210492	श्री सत्या श्रीधर गरिमेल्ला	ए सी ए	14/01/2008	268	212756	श्री परमेश एस आर	ए सी ए	17/04/2007
234	210652	श्री संदीप कुमार अग्रवाल	ए सी ए	11/12/2007	269	212927	श्री डेनी चन्द्रसेन चौटरानी	ए सी ए	31/10/2007
235	210765	श्री सटेलिन के	ए सी ए	11/04/2007	270	212968	कुमारी नीधिया डी	ए सी ए	19/09/2007
236	210798	श्री चक्का वैक्टा राजेशवर	ए सी ए	12/06/2007	271	213024	श्री समीर अहमद खान	ए सी ए	20/04/2007
237	210832	श्री सत्यानारायणा मुर्ति धवल	ए सी ए	26/07/2007	272	213197	कुमारी सोमय टी बी	ए सी ए	26/09/2007
238	210833	कुमारी न्याषी श्रीलथा	ए सी ए	04/04/2007	273	213329	श्री विनय कुमार वीधूपाळा	ए सी ए	14/09/2007
239	210860	श्री राजेश सी नायर	ए सी ए	30/01/2008	274	213358	श्री कल्याणा मुन्दरम बी वी	ए सी ए	01/10/2007
240	210869	कुमारी अलीना मैरी वरकेई	ए सी ए	07/12/2007	275	213390	कुमारी वानी एस	ए सी ए	06/11/2007
241	210893	श्री जो मैथ्यू	ए सी ए	17/09/2007	276	213501	कुमारी विसालक्ष्मी बी	ए सी ए	29/11/2007
242	210924	कुमारी श्रीकला आर	ए सी ए	05/04/2007	277	213503	श्री शशीन्द्र रेड्डी एस	ए सी ए	25/04/2007
243	210941	कुमारी सुप्रिया एस	ए सी ए	07/03/2008	278	213522	श्री पामीडी श्रीकान्त	ए सी ए	17/04/2007
244	210974	श्री मनोज सेबसतीयन	ए सी ए	19/02/2008	279	213711	कुमारी स्मृति चन्द्रा	ए सी ए	30/04/2007
245	211236	श्री सतीश कोरुप्पोलु	ए सी ए	29/08/2007	280	213735	श्री विरपण एम	ए सी ए	02/08/2007

क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	विषय	पु नः स्थापन की तिथि	क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	विषय	पु नः स्थापन की तिथि
281	213654	कुमारी पद्म लक्ष्मी सीरेशा	ए सी ए	17/09/2007	297	216323	श्री मुरली जी	ए सी ए	07/03/2008
282	213999	श्री पार्थ संजय विष्णु	ए सी ए	04/08/2007	298	216508	कुमारी स्वाती पंढेना	ए सी ए	07/05/2007
283	214080	श्री जॉसेफ ए	ए सी ए	05/09/2007	299	216544	कुमारी सुभा कृष्णामूर्ति	ए सी ए	17/01/2008
284	214120	श्री बडे हिमा वैक्टा नरेश	ए सी ए	05/09/2007	300	216551	श्री नितिन मेनन	ए सी ए	27/07/2007
285	214136	श्री विजय साई कृष्णा टोलेती	ए सी ए	07/09/2007	301	216560	श्री तेशागिरि एस	ए सी ए	18/06/2007
286	214280	श्री गिबू चाको	ए सी ए	14/05/2007	302	216719	श्री विनोद कुमार जी	ए सी ए	30/08/2007
287	214687	श्री श्रीराम एस	ए सी ए	12/03/2008	303	216802	श्री एष्वरा रेड्डी बट्टा	ए सी ए	21/01/2008
288	214742	कुमारी भानू बी आर	ए सी ए	09/08/2007	304	216809	कुमारी पुष्पागिरि बी	ए सी ए	13/03/2008
289	214931	श्री कमलेश कुमार भंसाली	ए सी ए	17/08/2007	305	217030	श्री दिलीप कुमार चलासानी	ए सी ए	13/03/2008
290	215061	श्री सतीश सीएच बी वी जादू	ए सी ए	25/09/2007	306	217238	श्री वीरवेंकटा सुब्बा राव के	ए सी ए	25/02/2008
291	215114	कुमारी अपरणा प्रफुल बोरा	ए सी ए	10/10/2007	307	217269	श्री वैक्टा रेड्डी संकरा	ए सी ए	25/02/2008
292	215212	श्री अशर्क बालापील	ए सी ए	01/10/2007	308	401573	कुमारी गुला स्वाती	ए सी ए	09/07/2007
293	215233	श्री वादनी वैक्कानोडा संगानागोडा	ए सी ए	25/06/2007	309	403189	श्री अग्रवाल योगेश कुमार	ए सी ए	19/06/2007
294	215259	कुमारी आरती लक्ष्मी सुब्रह्मनीयन	ए सी ए	21/08/2007	310	404518	कुमारी मुखर्जी शोमिता	ए सी ए	15/05/2007
295	215281	श्री राधा कृष्णा ए	ए सी ए	22/08/2007	311	503628	श्री गुप्ता अनुल	ए सी ए	09/01/2008
296	216134	श्री प्रणय कुमार मोहापात्रा	ए सी ए	26/07/2007	312	505067	श्री महेशवरी संजय कुमार	ए सी ए	19/04/2007

टी. कार्तिकेयन  
सचिव

#### कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अहमदाबाद-380014, दिनांक 20 जुलाई 2009

सं. U-12.14.SRTDIC.PTMR.SMC.09--

#### कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण)

विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियाँ महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त, (गुजरात) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा मूल प्रमाणपत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

डॉक्टर का नाम	अवधि	केंद्र का नाम
डॉ. डी. आई. चौहान	10.05.2009 से 9.5.2010	एस. आर. ओ. सूरत, गुजरात

एस. बी. अरोड़ा  
राज्य चिकित्सा आयुक्त

सं. U-12.14.GGK.JML.PTMR.SMC.09--

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण)

विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियाँ महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त, (गुजरात) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा मूल प्रमाणपत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. जी. जी. कर्णा	01.08.2009 से 31.7.2010	जमालपुर, अहमदाबाद गुजरात

एस. बी. अरोड़ा  
राज्य चिकित्सा आयुक्त  
राजीव अग्रवाल  
प्रबंध निदेशक



## राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

मि०सं०:रा०स०वि०नि०:6-1/2006-प्रशा०

तारीख: 22 जुलाई, 2009

केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 26) की धारा 23(2) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम पूर्व स्वीकृति से रा०स०वि०नि० सेवा विनियमन 1967 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

1. (1) इन विनियमों का संधिप्त नाम राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सेवा (संशोधन) विनियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सेवा विनियमन, 1967 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियमन कहा गया है), \_\_\_\_\_ विनियम 53 के उप नियम(1) के अन्तः में निम्नलिखित अन्तः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्

“शिशु देखभाल अवकाश \_\_\_\_\_ (विनियम सं०-60 (4) देखिए)”

3. (ii) उक्त विनियमों के विनियम संख्या-59 के उपविनियम संख्या-(2) के स्थान पर निम्नलिखित रखे जायेंगे।

“अर्धवेतन अवकाश.- किसी कर्मचारी के सम्पूर्ण सेवाकाल में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जनवरी तथा जुलाई मास की प्रथम दिन को दो क्रिस्तों में 10-10 दिन का अर्धवेतन अवकाश अग्रिम रूप में प्रदान किया जाए”।


4. उक्त विनियम संख्या-60 के उपविनियम संख्या-1 के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात:-

“कोई भी महिला कर्मचारी प्रसूति प्रारम्भ होने की तारीख से पूर्ण वेतन सहित 180 दिनों की अवधि की प्रसूति अवकाश लेने की पात्र होगी और महिला कर्मचारी को सभी प्रकार के देय तथा स्वीकार्य अवकाश 60 दिन तक की अवधि के परिणत अवकाश तथा अदेय अवकाश समेत लेने की अनुमति दी जाए जो प्रसूति अवकाश के अनुसरण में 2 वर्ष की अवधि तक बढ़ाए जा सकते हैं।”

5. उक्त विनियमन के विनियमन-60 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएंगे अर्थात:-

“60 क शिशु देखभाल अवकाश”

- (1) जिस महिला कर्मचारी के दो अवयस्क बच्चे हैं उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिशु देखभाल अवकाश दिया जा सकता है। यह अवकाश महिला कर्मचारी को सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान केवल दो ज्येष्ठ उत्तरजीवी बच्चों तक उनके पालन-पोषण या उनकी परीक्षा, रुग्णता आदि जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि (अर्थात् 730 दिनों) तक दिया जा सकता है।
- (2) यदि बच्चे की आयु 18 वर्ष अथवा इससे अधिक है तो शिशु देखभाल अवकाश स्वीकार्य नहीं होगा।
- (3) महिला कर्मचारी को ऐसे अवकाश के दौरान वेतन की उतनी ही राशि का भुगतान किया जाएगा जितनी वह इस अवकाश पर जाने से ठीक पहले प्राप्त कर रही थी।
- (4) यह अवकाश एक बार से अधिक अवधि में लिया जा सकता है।
- (5) शिशु देखभाल अवकाश महिला कर्मचारी के अवकाश खाते में नहीं अंकित किया जाएगा।
- (6) यह अवकाश देय न हो तो शिशु देखभाल अवकाश की अनुमति (चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए बिना) तीसरे वर्ष में भी दी जा सकती है।
- (7) इसे देय तथा स्वीकार्य किस्म के अवकाश के साथ मिश्रित किया जा सकता है।
- (8) शिशु देखभाल अवकाश अधिकार के रूप नहीं लिया जा सकता।
- (9) कोई भी कर्मचारी किसी भी स्थिति में अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी से अवकाश की पूर्व स्वीकृति लिए बिना अवकाश पर नहीं जा सकता।
- (10) यह अवकाश अर्जित अवकाश के समान समझा जाए तथा उसी प्रकार स्वीकृत किया जाए।
- (11) शिशु देखभाल अवकाश केवल तभी लिया जा सकता है जब संबंधित महिला कर्मचारी के अवकाश खाते में अर्जित अवकाश न हो।
- (12) शिशु देखभाल अवकाश का लेखा-जोखा एक अलग प्रपत्र में रखा जाएगा।

  
 ( राजीव अग्रवाल )  
 प्रबंध निदेशक

टिप्पण - मूल विनियमन अधिसूचना संख्यांक 21 तारीख 25.5.1968 द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

## DENA BANK

Mumbai-400051

In exercise of powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition And Transfer of Undertakings) Act, 1970 ( 5 of 1970 ), the Board of Directors of DENA BANK after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government propose to make the following amendments to the DENA BANK ( Shares and Meetings ) Regulations 2003. namely:-

1. Short title and commencement . (1) These Regulations may be called the DENA BANK ( Shares and Meetings ) Amendment Regulations, 2008  
(2) They shall come into force on the date of their publications in the Official Gazette.

2. Amendments of Regulations 2 and 4 in the DENA BANK ( Shares and Meetings ) Regulations 2003 -

- (i) in Regulation 2, for clause (p). The following clause shall be substituted namely-

"(p) The Words and expressions used herein and not defined in these Regulations but defined in the Act or Schemes, or guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India, and the guidelines framed by the Reserve Bank in pursuant to the powers conferred on it under the proviso to clause (c) of sub- section (2B) of section 3 of the Act shall have same meaning respectively assigned to them in the Act or the Scheme or the guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India or framed by the Reserve Bank, as the case may be ";

- (ii) after regulation 4, the following regulation shall be inserted namely -

4A (1) The Bank may raise capital by public issue or preferential allotment or private placement of Equity Shares or Preference Shares.

- (2) The Bank Shall formulate a proposal to raise Capital in accordance with the guidelines, rules or regulations of the Securities and Exchange Board of India, relating to raising of such Capital.
- (3) For raising capital by public issue or preferential allotment or private placement of Preference Shares, the extent of issue of each class of such Preference Shares ( whether perpetual or irredeemable or redeemable ) and the terms and conditions subject to which each class of such Preference Shares that may be issued by the Bank shall be determined in accordance with the guidelines framed by the Reserve Bank in pursuant to the provisions contained in the proviso to clause (c) of sub- section (2B) of section 3 of the Act.
- (4) The Bank shall submit the proposal to Reserve Bank and take into account the views of the Reserve Bank before finalizing the proposal.
- (5) The final proposal shall thereafter be submitted to the Central Government for its sanction and the Central Government may grant sanction subject to such terms and conditions as it may deem fit.
- (6) The Bank shall raise capital in accordance with the sanction of the Central Government."

  
Asst. General Manager

  
General Manager

Foot Note:- The Principal Regulation was published in the Gazette of India vide Notification( part III, section 4) dated 29.04.1999 and subsequent amendments published in the Gazette of India vide Notification Dated 28/11/2003.

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi, the 16th July 2006

(Chartered Accountants)

No. 1-CA(7)/(127) 2009—In pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Western India Regional Council at Vapi with effect from July 9, 2009.

The Branch shall be known as Vapi Branch of the Western India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall, besides Vapi City, include the following cities/towns falling within a radius of 50 kms from the Municipal limits of Vapi.

- |             |              |
|-------------|--------------|
| 1. Bilimora | 5. Dahanu    |
| 2. Dadra    | 6. Silvassa  |
| 3. Daman    | 7. Umbargaon |
| 4. Valsad   |              |

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Western India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

T. KARTHIKEYAN  
Secretary

Chennai-600034, the 30th June 2009

3SCA(5)/1/2007-2008 : With reference to this Institute's Notification No. 3SCA(4)/1/2007-2008 dated 25th March 2009 it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored retrospectively to the Register of Members with effect from 1st October 2007 the names of the following members

S NO	MRN	MEMBER NAME		S NO	MRN	MEMBER NAME	
1	004407	MR. BHAGVAN KRISHNA PRASAD	FCA	31	022909	MR. SHAJI POULOSE	FCA
2	006027	MR. CHELLAPPAN PL	ACA	32	022947	MR. HARIGOPAL L	ACA
3	008628	MR. GOVINDA RAO K V	ACA	33	023150	MR. KRISHNA KUMAR S	FCA
4	012696	MR. AYYASWAMY G	FCA	34	023250	MR. RADHA KRISHNA BABU G	FCA
5	013907	MR. BALARAMAN V	FCA	35	023345	MR. SHARMA G K A P	ACA
6	014518	MR. SOUNDARARAJAN S	ACA	36	023563	MR. CHITHARANJAN T	FCA
7	015079	MR. MADHVESHA P	FCA	37	023638	MR. AMMANGI U G	FCA
8	018066	MR. KRISHNA MURTHY G	ACA	38	023784	MR. KODALI HARESH BABU	ACA
9	018264	MR. MURTHUZA A SYED	FCA	39	023826	MR. NAGARAJAN R	FCA
10	018843	MR. SAMBASIVA RAO S	FCA	40	023890	MR. VENKATESAN M	ACA
11	019004	MR. RAMACHANDRAIAH C	FCA	41	023931	MR. ANANTHA KRISHNAN R	ACA
12	019217	MR. MURALI N K	ACA	42	023934	MR. SAMPATH KUMAR P B	FCA
13	019261	MR. RAMESH BABU K	FCA	43	024137	MR. SRINIVASAN S	FCA
14	019626	MR. SREEDHARAN P	FCA	44	024145	MR. BALASUBRAMANIAN M	ACA
15	019737	MR. TIRUMALA RAO S	FCA	45	024147	MS. SUMATHI R	ACA
16	019863	MR. BALAJI G S	FCA	46	024160	MR. RANGAN N KANNAN	FCA
17	019950	MR. VASUDEVAN A S	ACA	47	024321	MR. JALALUDDIN A M	FCA
18	020198	MR. SUBBARATNAM P	ACA	48	024463	MR. KANNAN B	FCA
19	020642	MR. RAGHAVAN R S	ACA	49	024575	MR. RAVI S	ACA
20	020989	MR. KRISHNAMURTHY R	FCA	50	024657	MR. SUBRAMANYAM V S V	FCA
21	021375	MR. KRISHNAN R	FCA	51	024693	MR. THANGARAJ TONY JAYANT	ACA
22	021569	MR. KRISHNASAMI V	ACA	52	024781	MR. MUTHU RAJU S	FCA
23	021983	MR. BHAVNANI T RAMESH	ACA	53	024968	MR. RAVICHANDRAN N	FCA
24	022100	MR. RANGANATHAN V	ACA	54	025060	MR. SRIRAM R	FCA
25	022205	MR. SRINIVASAN V	ACA	55	025641	MR. MOHAN J	FCA
26	022238	MR. MURALI KRISHNAMURTHY CH G	FCA	56	025715	MR. MURALI T N	FCA
27	022347	MR. RAMASUBRAMANIAN S	ACA	57	025996	MR. VISWANATHAN C	ACA
28	022475	MR. BHARATHAN R	ACA	58	026003	MR. RAVINDRA KUMAR M	ACA
29	022520	MR. SHANKAR R	ACA	59	026125	MR. PADMANABHAN P M	ACA
30	022775	MR. VENUGOPAL S	FCA	60	026153	MR. MAHENDER KUMAR M	FCA

61	026445	MS. LAKSHMI RAJAGOPALAN	FCA	101	062864	MR. VIJAYA KUMAR JAMMULA	ACA
62	026614	MR. SRIDHAR A	ACA	102	065221	CA. VINEET CHATURVEDI	ACA
63	026623	MR. RAJAVELU M S	FCA	103	071883	MR. BHARAT BHUSHAN MITHAL	FCA
64	026786	MR. VARKEY M KURIAN	FCA	104	073178	MR. SARANGAPANI C H	FCA
65	026903	MR. SEKAR T N	FCA	105	080910	MR. SAMUELRAJ T JAMES	ACA
66	026960	MR. SATHYAMURTHY R	FCA	106	082105	MR. SRIVASTAVA SATYA KUMAR	ACA
67	027122	MR. ASHOKKUMAR D	ACA	107	086277	MR. WAHI ANIL	FCA
68	027421	MR. BINU JACOB KURIAN	ACA	108	095854	MR. NIRWAN MAHESH KUMAR	ACA
69	027645	MR. BADARINATH RAO	FCA	109	098953	MS. RAJINI V RAMAN	ACA
70	027784	MR. SIVARAJ M	ACA	110	102735	MR. BHAGWAT SUBRAYA RAMAKRISHNA	ACA
71	028188	MR. KUMAR G H S	FCA	111	108321	MS. JALAN KOMAL NEERAJ	ACA
72	028215	MR. SREEKANTH A	ACA	112	109726	MR. JONATHAN ANCHEN	ACA
73	028551	MR. VAIDYANATH V A	FCA	113	113605	MR. AJAY JAIN	ACA
74	028616	MR. PRAKASH RAMA CHANDRAN	FCA	114	113981	MS. NANDIJA SANKARAKAMAN	ACA
75	028795	MR. PRASAD A S V	ACA	115	115066	MR. MANISH BHASKARRAO VYAWAHARE	FCA
76	028798	MR. PARTHASARATHY R	ACA	116	118087	MR. SANJAY WADHWANI	ACA
77	028944	MR. SHESHADRI K	FCA	117	200120	MR. SELVA THIRAVIAM H	FCA
78	028965	MR. JITENDRA BABU M	FCA	118	200201	MR. MADHU SUDHAN P	FCA
79	029004	MR. SHANKAR S MURTHY	FCA	119	200342	MR. PALANIAPPAN TR	FCA
80	029005	MR. THANIGAI ARASU S	FCA	120	200348	MR. KRISHNA SRINIVASAN	ACA
81	029280	MR. VINOD	ACA	121	200386	MR. SRIDHARAN V R	FCA
82	029283	MR. BALARAMAN K	ACA	122	200392	MR. SUBRAMANIAN K	ACA
83	029352	MR. GOPINATH N L	ACA	123	200500	MR. JOHN K ABRAHAM	FCA
84	029358	MR. SRIDHARAN R	ACA	124	200588	MR. BALAJI P B	FCA
85	029499	MR. KANNAN S	ACA	125	200794	MR. GANESH UPPALA	FCA
86	034238	MR. ASHOK S	ACA	126	200901	MR. SIVAKUMAR S	ACA
87	040217	MR. NAGDA JAYESH LAXMICHAND	FCA	127	200943	MR. MURALI NARAYANAN V R	FCA
88	042559	MR. ISRANI HIREN HEMAN	ACA	128	201044	MR. GOPALAKRISHNAN V	ACA
89	042703	MR. SURENDRA KUMAR GHOSH	ACA	129	201364	MR. ALEX P ABRAHAM	FCA
90	043190	MR. GURU DUTT KAMALAX SHENOY	ACA	130	201380	MR. VENKATA SESHIAH KONDAMURI	ACA
91	045702	MS. KULKARNI SONALI G	ACA	131	201561	MR. NIRMAL KUMAR S M	ACA
92	050359	MR. CHATTOPADHYAY UDAY SANKAR	FCA	132	201568	MR. MAHADEVAN G	FCA
93	053929	MR. SANJAY SARAF	FCA	133	201633	MR. MANIVANNAN S	ACA
94	056434	MR. PANI BASANTA KUMAR	ACA	134	201735	MR. SEKKIZHAR B	FCA
95	058039	MS. JAYASHREE MANTRI EASWARAN	ACA	135	201991	MS. REVATHI R	ACA
96	058708	MR. KUMAR GHANSHYAM	ACA	136	202078	MS. INDU MADHAVAN	FCA
97	059552	MR. PANDA CHANDRAMANI	FCA	137	202110	MR. SRINIVASARAGHAVAN R	ACA
98	060256	MR. JAIN SAURABH	ACA	138	202164	MR. SIVAKUMAR T	ACA
99	060466	MR. DHIRAJ KUMAR	ACA	139	202175	MR. NARAYANAN L	FCA
100	060701	MR. AGARWAL BINAY	ACA	140	202214	MR. RAMA RAO MADIPALLI	FCA

141	202249	MR. MURALIDHARAN S	ACA	181	208446	MS. SARITHA M	ACA
142	202271	MR. NANDURI V S S GANGARAJU	ACA	182	208475	MR. KIRUBAMANI A	FCA
143	202341	MR. SRIRAM S	FCA	183	208478	MR. NATARAJAN S	ACA
144	202373	MR. RAJKUMAR M	ACA	184	208503	MR. MEENAKSHISUNDARAM V	ACA
145	202630	MS. BHARATHI K	ACA	185	208769	MR. KOTHURI RAMESH	FCA
146	202796	MR. JALALUDDIN N MOHAMED	FCA	186	208804	MR. PARAMESWARAN P N	ACA
147	202963	MR. RAMANATHA PRABHU N	FCA	187	208805	MR. RAM N V	ACA
148	202988	MR. RAMKUMAR S	ACA	188	208900	MR. ARVIND K S	ACA
149	203067	MR. RAJAN N	FCA	189	209038	MR. RAJA RAY	ACA
150	203427	MR. NAGESWARA RAO S	FCA	190	209068	MR. KALAPPA K K	ACA
151	203468	MR. HUSSAINI S M	ACA	191	209343	MR. CHANDRA PRAKASH G N	ACA
152	203603	MR. RAMACHANDRAN D	ACA	192	209355	MR. MOHAMMED ABDUL KHAYYUM	ACA
153	204055	MR. SUBRAMANIAN K S	ACA	193	209438	MR. SANJAY RAJ JAIN R	FCA
154	204067	MR. SATYAKANTH A	FCA	194	209728	MR. VELLUMANI A	ACA
155	204430	MR. SATISH K	ACA	195	209751	MS. NAGALAKSHMI N	ACA
156	204611	MR. SRIRAM S	ACA	196	209777	MR. NARASIMHAN T V	ACA
157	204678	MS. SNEHA P A	ACA	197	209849	MR. RAMASESHAN P R	ACA
158	204759	MS. USHA BAI M R	FCA	198	209987	MS. NITHYA NIRUPAMA B	ACA
159	204911	MS. ANGELINE ENOK	ACA	199	209995	MR. BHUPENDRA AGARWAL	FCA
160	204960	MR. SWAMINATHAN R	ACA	200	210016	MR. CHANDRA SEKHAR REDDY G	FCA
161	204983	MR. CHIDANANDA URS B G	FCA	201	210135	MR. KUMAR S	ACA
162	205045	MR. BALAJEE R	ACA	202	210161	MR. RAVI SHANKAR V	FCA
163	205120	MR. RAMANA REDDY P V	ACA	203	210171	MS. ANURADHA KASARABADA	FCA
164	205306	MR. GOPALA RAJU B R	ACA	204	210243	MS. KIRTIMALINI NILEKAR	ACA
165	205512	MR. ADHIKARI MOHANARAO	ACA	205	210320	MR. RISHI MEHRA	ACA
166	205605	MR. PARAS KUMAR P	FCA	206	210388	MR. MANOJ P JOSEPH	ACA
167	205673	MR. VENKATA RAMAN K	FCA	207	210444	MR. SRINIVASAN G	ACA
168	205838	MR. SELVARAJ L	ACA	208	210453	MR. MANGESH GOVIND DESAI	ACA
169	205994	MR. MURALIKRISHNAN T N	ACA	209	210454	MR. UDAYAPPAN SP	ACA
170	206312	MR. SRINIVASAN K	FCA	210	210557	MR. VENKATESWARLU KOMMURU	ACA
171	206643	MS. HARITHA V	FCA	211	210566	MR. MURALI KRISHNA C	ACA
172	207062	MR. RAMESH G	ACA	212	210740	MS. ANITHA V	ACA
173	207209	MR. NAVANEETHA KRISHNAN S	ACA	213	210828	MR. SRINIVASAN S	ACA
174	207502	MR. MANISUNDARAM S V	ACA	214	210936	MS. BHUVANESHWARI M	ACA
175	207587	MR. ANANDA KUMAR H R	ACA	215	211076	MS. PARVATHAVARDHINI N	ACA
176	207588	MR. SAYED MOHAMMED ISMAIL	FCA	216	211099	MR. SURESH KUMAR V	ACA
177	207613	MR. VENKATA RAO NARNE	ACA	217	211106	MR. ANAND MANTRI	ACA
178	207731	MS. NAGAPARVATHY N	ACA	218	211112	MR. MAHALINGAM V	ACA
179	207981	MR. SHANKAR SATHISH K	ACA	219	211169	MR. TURLAPATI KIRAN KUMAR	ACA
180	208154	MR. VENKATARAMANAN R	ACA	220	211218	MS. PRIYA RAMACHANDRAN	ACA

221	211223	MS. PREETHA SUSAN PHILIP	ACA	261	215240	MR. RAJA SEKHAR ITHA	ACA
222	211393	MR. WINSTON MORAES A	ACA	262	215261	MS. VENKATA SUGUNA SREE NANDULA	ACA
223	211487	MR. PUTCHA VENKATESWARLU	ACA	263	215278	MR. SANDESH KUMAR	ACA
224	211498	MR. STEPHEN GNANASEKARAN S	ACA	264	215339	MS. SARAH ZACHARIAH	ACA
225	211536	MR. SRIDHAR ANDHAVARAPU	ACA	265	215416	MR. UMA SHANKAR PATRO K	ACA
226	211596	MR. SATYANARAYANA BARATAM	ACA	266	215457	MR. SUBHASH CHANDRA NERELLA	ACA
227	211664	MS. KOMATHI K	ACA	267	215513	MR. GANDHI BILLAPATI S S	ACA
228	211701	MR. VENUGOPALA KRISHNA H	ACA	268	215602	MR. RAMAKRISHNAN K M	ACA
229	211801	MR. SESHADRINATHAN K R	ACA	269	215666	MR. SATEESH PASUPULETI	ACA
230	211849	MR. SRIVATHSAN P B	ACA	270	215732	MR. JAYADEV K	ACA
231	211890	MR. KARTHIK C	ACA	271	215734	MS. ARPANA KEDIA	ACA
232	211898	MR. SHINU THOMAS VARGHESE	ACA	272	215773	MR. DANUNJAYA A	ACA
233	211964	MR. VENKAT BHARADWAJ K	ACA	273	215828	MR. NAVEEN B	ACA
234	212040	MS. RAMYA S	ACA	274	215904	MS. GOWRI K	ACA
235	212266	MR. CHANDAN MOHAPATRA	ACA	275	216098	MR. SURESH S	ACA
236	212482	MR. BRAHMAJI GUPTA GULLAPUDI	ACA	276	216166	MR. BAHUBALI PRITHVIRAJ	ACA
237	212494	MR. RAMKUMAR K	ACA	277	216177	MR. GOKULDAS PAI H	ACA
238	212660	MR. SANTOSH KUMAR M	ACA	278	216182	MR. MOHAN B	ACA
239	212673	MS. LAKSHMI DUGGISETTY	ACA	279	216244	MR. DAYANIWAS SHARMA	ACA
240	212681	MR. SHANMUGARAJ P	ACA	280	216280	MR. BOBBA GOKUL	ACA
241	212847	MR. KIRAN JOSEPH	ACA	281	216388	MR. SUJIT POKHAREL	ACA
242	213020	MS. ANJU MATHEW	ACA	282	216469	MR. ROHIT T	ACA
243	213153	MR. RAJU M PALLAN	ACA	283	216490	MR. SATHISH G	ACA
244	213180	MR. CHALAPATHI V V S	ACA	284	216608	MR. ALFRED THOMAS	ACA
245	213190	MR. MURALI KRISHNA V	ACA	285	216732	MR. SUDHARSHAN M	ACA
246	213324	MS. RAJALAKSHMI C	ACA	286	216744	MR. CHANDRA SEKHAR GOLLA	ACA
247	213521	MR. PRAVEEN KUMAR MYNAMPATI	ACA	287	216774	MR. ARAVINDA BABU GARIKAPATI	ACA
248	213673	MS. BHAMINI G S	ACA	288	216782	MR. SUBBA RAYUDU GANTI	ACA
249	213685	MR. SANTHOSH KUMAR	ACA	289	216820	MR. VIJAYA KUMAR D	ACA
250	213730	MS. PAVITHRA R	ACA	290	216827	MS. KOTHUR APARNA	ACA
251	214245	MR. RABBI MAIMONIDES KASHYP	ACA	291	216877	MS. APARNA S	ACA
252	214371	MS. VASUNDHARA R	ACA	292	216928	MR. RAMA NAGA SAMBASIVA RAO SANKA	ACA
253	214598	MR. VINOD KUMAR V	ACA	293	217160	MR. RAMA RAVI SHANKAR REDDY R	ACA
254	214622	MR. PRASHANT JAIN	ACA	294	217218	MR. RAVI KUMAR V	ACA
255	214642	MR. CHANDRAMOULI V	ACA	295	217235	MR. VINAY S NAIR	ACA
256	214658	MR. NANDAN L SASTRY	ACA	296	217244	MR. SREERESH PRAKASH	ACA
257	214926	MR. ABHIJEET SREENIVASAN	ACA	297	217296	MR. JAGANNATH PATRA	ACA
258	214938	MR. RAVINDRA K S	ACA	298	217359	MR. KISLAYA SRIVASTAV	ACA
259	214959	MR. RAGUNATHAN S	ACA	299	217407	MS. RADHIKA PRAGALAPATI	ACA
260	215108	MR. RAM PRASAD BHAT M	ACA	300	217462	MR. DAS RAMESH CHANDRA	ACA



301	217494	MR. VENKATESH PRABHU	ACA	322	218452	MR. SANTHOSH A L	ACA
302	217531	MR. ANKIT KUMAR C SHAH	ACA	323	218460	MS. SUBHA R	ACA
303	217563	MR. ROSHAN POKHREL	ACA	324	218567	MS. ALAKANANDA GUPTA	ACA
304	217578	MR. VEERA MOHAN REDDY V	ACA	325	218773	MR. RAJKUMAR SHANKARAPPA BHADRANNAVAR	ACA
305	217584	MR. EDUKONDALU P	ACA	326	218858	MS. GANGA B	ACA
306	217599	MR. PRATAPA REDDY K	ACA	327	218908	MS. REKHA A R	ACA
307	217652	MS. SHAMIMA NASHRIN	ACA	328	219006	MS. VASAVI L	ACA
308	217658	MS. AMNIK TALWAR	ACA	329	219064	MR. RAJESH K	ACA
309	217745	MR. AMRESH NATH V	ACA	330	219074	MS. MANJU BIKKINA	ACA
310	217796	MR. ARUN K M	ACA	331	219098	MR. RAMESH A	ACA
311	217807	MS. DANALAKSHMI R D	ACA	332	219102	MR. JAISE THOMAS	ACA
312	217864	MR. SIVA RAMA KRISHNA REDDY MEDAPATI	ACA	333	219132	MR. KIRAN PHILIP	ACA
313	217883	MR. UDAYA KUMAR REDDY KOVURU	ACA	334	219141	MS. MADHURIMA S	ACA
314	217930	MR. SANIL CHACKO	ACA	335	219239	MS. VIDHU JAIN	ACA
315	217984	MR. KOTESWARA RAO PASUMARTI	ACA	336	403329	MRS. SETH KAJAL	ACA
316	218000	MR. SENTHILKUMAR A	ACA	337	404071	MS. MAHESHWARI ANSHUDEEP	ACA
317	218148	MR. RAVEENDRANATH REDDY R	ACA	338	404967	MR. VAISHNAV HARISH KUMAR	ACA
318	218291	MR. UNNI P K	ACA	339	405648	MS. RUCHI BHARGAVA	ACA
319	218297	MR. CHETAN KUMAR KABRA	ACA	340	502037	MR. AGRAWAL MANOJ KUMAR	ACA
320	218364	MR. SATYANARAYANA BABU M V	ACA	341	503323	MR. PANJETA PARVINDER SINGH	ACA
321	218438	MR. AVINASH SUBHAS BALIGAR	ACA	342	509360	MR. NIRAJ CHOUDHARY	ACA

T. KARTHIKEYAN  
Secretary

3SCA(5)/2/2007-2008: With reference to this Institute's Notification Nos. 3SCA(4)/10/83-84 dated 31st March 1984, 3SCA(4)/8/87-88 dated 30th December 1987, 3SCA(4)/18/87-88 dated 31st March 1988, 3SCA(4)/10/88-89 dated 27th January 1989, SCA(4)/3/89-90 dated 7th July 1989, 3SCA(4)/12/89-90 dated 25th October 1989, 3SCA(4)/8/90-91 dated 1st December 1990, 3SCA(4)/9/91-92 dated 1st January 1992, 3SCA(4)/3/93-94 dated 11th January 1994, 3SCA(4)/4/94-95 dated 22nd February 1995, 3SCA(4)/5/95-96 dated 12th March 1996, 3SCA(4)/5/96-97 dated 7th April 1997, 3SCA(4)/3/97-98 dated 31st March 1998, 3SCA(4)/4/1998-99 dated 7th May 1999, 3SCA(4)/4/1999-2000 dated 17th April 2000, 3SCA(4)/5/2000-2001 dated 12th December 2001, 3SCA(4)/5/2001-2002 dated 21st May 2002, 3SCA(4)/4/2002-2003 dated 30th April 2003, 3SCA(4)/4/2003-2004 dated 23rd August 2004, 3SCA(4)/5/2004-2005 dated 7th July 2006, 3SCA(4)/3/2005-2006 dated 29th August 2007 and 3SCA(4)/3/2006-2007 dated 30th May 2008, It is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following members:-

S.No.	MRN	Member Name	Restore Date	S.No.	MRN	Member Name	Restore Date
1	4485	MR. SUBBARAMAN M N ACA	05/09/2007	26	20222	MR. SUNDARARAJAN R ACA	01/04/2007
2	6763	MR. ANANDA RAO P FCA	12/12/2007	27	20224	MR. GEORGE STEPHEN J ACA	27/08/2007
3	12821	MR. KANAGASABAPATHY D ACA	23/04/2007	28	20475	MR. JOHN K M ACA	01/08/2007
4	13079	MR. SAMPATHKUMAR S S ACA	10/07/2007	29	20871	MR. SUBBA RAO PENDELA VENKATA ACA	13/07/2007
5	13429	MR. RAMANATHAN K FCA	05/04/2007	30	21067	MR. SRINATH B FCA	11/03/2008
6	14224	MR. SHAMANNA NANJAPPA ACA	09/10/2007	31	21111	MR. RAGHURAMAN S FCA	22/06/2007
7	14292	MR. GOPAL DAS B FCA	06/11/2007	32	21294	MR. ABRAHAM CHERIAN FCA	04/01/2008
8	15035	MR. PANDU RANGA RAO K ACA	12/03/2007	33	21795	MR. RAGUNATH B N FCA	23/07/2007
9	15804	MR. SRIDHARAN D R ACA	10/05/2007	34	22159	MR. SUBRAMANIAN V ACA	10/09/2007
10	15906	MR. SUBHRANGSHU ROY ACA	12/11/2007	35	22319	MR. VENKAT V S ACA	20/09/2007
11	16190	MR. VISWANATH DAS N ACA	20/04/2007	36	22908	MR. RAMACHANDRAN G ACA	14/09/2007
12	16311	MR. NACHIAPPAN MR FCA	10/08/2007	37	22997	MR. ANANTHARAMAN K R ACA	04/06/2007
13	17239	MR. MAHADEVAN S ACA	10/07/2007	38	23016	MR. BHARATH P B ACA	13/09/2007
14	18020	MR. SRIMAN NARAYANA CHOWDARY K ACA	12/06/2007	39	23017	MR. SELVAMANI CT ACA	21/08/2006
15	18286	MR. SHANKAR V ACA	05/11/2007	40	23492	MR. RAJASEKHAR K U ACA	26/04/2007
16	18452	MR. MADHU N ACA	19/09/2007	41	23508	MR. THIRUVÉNGADAM S FCA	29/06/2007
17	18621	MR. SYED MOHAMED AJMAL ACA	27/07/2007	42	23611	MR. MATHEW SANICHAN M FCA	19/04/2007
18	18691	MR. SRIRAMAN J FCA	17/04/2007	43	23963	MR. MUTHU N K FCA	10/04/2007
19	18718	MR. SOMASEKHARAN P S FCA	19/07/2007	44	23980	MR. SASIKUMAR N R ACA	14/12/2007
20	19115	MR. RAMA MOORTHY RAO P ACA	09/03/2007	45	24325	MR. VIJAYA KRISHNAN R FCA	16/05/2007
21	19157	MR. SANKARAN J ACA	14/05/2007	46	24385	MR. ARUMUGAM V M FCA	24/08/2007
22	19504	MR. SRINIVASAN R ACA	04/06/2007	47	24405	MR. GURUNATHAN S V ACA	26/07/2007
23	19527	MR. SHEKAR K C FCA	05/03/2008	48	24573	MR. JOY JOSEPH ACA	31/10/2007
24	19536	MR. SANKA RAJAGOPAL FCA	10/04/2007	49	24621	MR. BAPUJI N ACA	19/04/2007
25	19947	MR. RAMANATHAN R ACA	19/09/2007	50	24689	MR. KODUKULA LAKSHMI MOHAN RAO ACA	17/07/2007

S.No.	MRN	Member Name	Restore Date	S.No.	MRN	Member Name	Restore Date
51	24865	MS. VASAVI PAULUS T ACA	13/02/2008	86	30298	MR. SUKUMAR KURUGANTI ACA	26/07/2007
52	25254	MR. SRIRAM V FCA	07/11/2007	87	31292	MR. RAVI MAHALINGAM IYER FCA	04/07/2007
53	25270	MR. KODANDARAMA SASTRY J FCA	11/06/2007	88	32349	MR. SIVARAM R ACA	25/05/2007
54	25364	MR. VIJAYA BHASKAR RAO P ACA	03/08/2007	89	35898	MR. NATARAJAN R ACA	14/03/2008
55	25417	MR. VASANTHAKRISHNAN T R FCA	15/06/2007	90	39594	MR. DEVENDRA PRASAD AMETA FCA	07/01/2008
56	25737	MR. ACHUTUNI BALAJI FCA	05/03/2007	91	48581	MR. TRIVEDI DHAVAL KANUBHAI ACA	23/05/2007
57	25822	MS. JYOTI RAO K ACA	28/02/2008	92	49960	MR. JATAR RAJENDRA BHALCHANDRA ACA	18/07/2007
58	25877	MR. SUBBA RAO M FCA	30/07/2007	93	51198	MR. PATODIA SUNIL KUMAR FCA	24/05/2007
59	25991	MR. SIVASUBRAMANIAN R FCA	21/05/2007	94	52015	MR. ADI NARAYAN VENKATESH ACA	16/11/2007
60	26205	MR. BABU V J FCA	29/05/2007	95	54895	MR. DURGAVAJJULA SIVAJEE ACA	10/03/2008
61	26467	MR. RAMAKRISHNA V FCA	10/10/2007	96	55051	MR. RAJIV KUMAR CHATURVEDI ACA	16/07/2007
62	27082	MR. SAI KRISHNAN R FCA	15/10/2007	97	57361	MR. BANERJEE SUKANTA ACA	30/05/2007
63	27092	MS. CHITRA PRASAD ACA	11/09/2007	98	59139	MR. SINGH VIJAY VIKRAM ACA	24/09/2007
64	27340	MR. RAVISHANKAR T FCA	20/08/2007	99	59343	MS. MAHESHWARI BHAWANA ACA	05/09/2007
65	27378	MR. MURALI S S FCA	20/04/2007	100	59998	MR. JAIN NAVIN ACA	03/07/2007
66	27474	MR. VIJAY KUMAR SASTRY K S FCA	14/01/2008	101	60299	MS. SRIVIDYA RAJAN ACA	27/06/2007
67	27599	MR. VARADARAJAN S ACA	25/02/2008	102	70181	MR. ALEX JOSE FCA	22/10/2007
68	27831	MR. CHANDRA SEKARAN S ACA	16/11/2007	103	73140	MR. SURESH RAO V R FCA	19/11/2007
69	27988	MR. RAMESH K R ACA	04/01/2008	104	77077	MR. BHANDARI HEMANT FCA	11/10/2007
70	28119	MR. JAYAKUMAR C ACA	05/06/2007	105	77433	MR. DEEPAK KHETAN ACA	03/09/2007
71	28127	MR. KRISHNA KUMAR CH FCA	06/02/2008	106	83378	MR. CHOPRA HIRDESH FCA	01/10/2007
72	28169	MR. RAVINDRAN R ACA	25/06/2007	107	84991	MR. BAGGA AMAR JEET SINGH FCA	05/06/2007
73	28228	MR. NARAYANAN V G ACA	02/01/2008	108	86300	MR. SALIM K FCA	19/06/2007
74	28245	MR. BALAKRISHNAN T R ACA	20/02/2008	109	87790	MR. NATARAJAN SUPRAJA ACA	10/09/2007
75	28425	MR. GOVINDARAJAN J FCA	13/11/2007	110	90976	MR. KRISHNAN R ACA	26/06/2007
76	28474	MR. RAVI T N C ACA	17/12/2007	111	98006	MR. MANOJ RAO LADI ACA	20/04/2007
77	28567	MR. KRISHNA MURTHY M FCA	22/05/2007	112	98328	MS. JAYALAKSHMI C ACA	23/05/2007
78	28675	MR. VARADHARAJAN S ACA	13/09/2007	113	100137	MS. VAISHALI PANDHARINATH PATIL FCA	25/04/2007
79	29011	MR. SURESH R ACA	24/01/2008	114	105147	MR. RAJGARA SOHEL YUSUF ACA	18/05/2007
80	29216	MR. JOY K M ACA	01/04/2007	115	109826	MR. AMIT GUPTA ACA	25/04/2007
81	29269	MR. RAMANATHAN S ACA	17/08/2007	116	113471	MRS. SWATI SIDDHARTH MITTAL ACA	02/11/2007
82	29566	MR. JACOB MATHEWS FCA	04/05/2006	117	114346	MS. MANJU CHRISTOPHER ACA	03/09/2007
83	29729	MR. PRABAKARAN K C ACA	04/07/2007	118	116054	MRS. ANUJA JAYANT RAMDASI ACA	07/05/2007
84	29907	MR. CHANDRASEKAR K ACA	08/10/2007	119	117124	MR. MOHAMMED YASSAR ACA	28/09/2007
85	29967	MR. KRISHNAN V ACA	10/05/2007	120	121865	MRS. ARTI GUPTA ACA	27/04/2007

S.No.	MRN	Member Name	Restore Date	S.No.	MRN	Member Name	Restore Date
121	200002	MR. BALAKRISHNAN H ACA	06/03/2008	156	204130	MR. SIVARAMAKRISHNAN C L ACA	26/11/2007
122	200013	MR. RAMASAMY B ACA	10/12/2007	157	204178	MR. SUNDAR R ACA	27/08/2007
123	200081	MS. GEETA RAMANATHAN FCA	25/05/2007	158	204281	MR. VENU MADHAVA K ACA	25/08/2007
124	200730	MR. THOMAS N ABRAHAM ACA	04/05/2007	159	204284	MR. OM PRAKASH B R ACA	13/09/2007
125	200790	MR. JOSEPH P MATHEWS ACA	18/08/2006	160	204344	MR. HARIMARAN N K ACA	02/07/2007
126	200807	MR. RAMESH KRISHNAN L ACA	04/12/2007	161	204494	MR. RAVINDERNATH CH ACA	06/12/2007
127	201034	MR. BADRINARAYANAN K S ACA	09/05/2007	162	204505	MR. RAVIKUMAR R ACA	20/09/2007
128	201326	MR. SRINIVAS SINGA RAJU KAKARLAPUDI ACA	01/02/2008	163	204506	MS. SANGEETHA RAVIKUMAR ACA	20/09/2007
129	201482	MR. ABRAHAM V VARKEY ACA	14/05/2007	164	204551	MR. RAVEENDRA REDDY V FCA	11/02/2008
130	201664	MR. KUMAR R FCA	25/06/2007	165	204673	MR. MURALIDHAR S V S ACA	17/02/2008
131	201784	MR. VARADHARAJAN S ACA	23/04/2007	166	204677	MR. VIJAYKRISHNAN T S ACA	30/05/2007
132	202053	MR. PRASAD NEKKADAPU V S L FCA	21/05/2007	167	204730	MR. MURALIDHARAN A K ACA	17/03/2008
133	202099	MR. SRIRAM KUMAR N ACA	16/08/2007	168	204740	MS. BHANUMATHI S ACA	31/05/2007
134	202104	MR. SUDHEESH BABU C ACA	11/12/2007	169	204799	MR. KUMAR G ACA	10/08/2007
135	202115	MR. RAVICHANDRAN L ACA	28/06/2007	170	204856	MR. GANESH RAMAN ARAJULA G ACA	17/10/2007
136	202201	MS. DHANLAKSHMI ACA	10/03/2008	171	205060	MR. VIJAYANANDA RAO SANA FCA	13/09/2007
137	202478	MR. GOPAL C P ACA	03/07/2007	172	205122	MR. GOPALAKRISHNAN S ACA	15/11/2007
138	202493	MR. RAJABAHADUR S R K G K S ACA	15/02/2008	173	205249	MR. SRINIVASAN P V ACA	30/04/2007
139	202676	MR. ASHWATH A ACA	18/12/2007	174	205336	MS. VINUTHA J SHETTY ACA	28/12/2007
140	202699	MR. RAVICHANDRAN V ACA	15/11/2007	175	205387	MR. SHEIK ABDUL FAREED S ACA	25/05/2007
141	202721	MR. THYAGARAJULU D ACA	31/01/2008	176	205586	MR. KANNAN P V FCA	22/02/2008
142	202786	MS. CHITRA H FCA	10/08/2007	177	205595	MS. KAVITHA SUBRAMANIYAN ACA	29/08/2007
143	202956	MR. GOPINATHAN C ACA	26/07/2007	178	205722	MR. VARADHARAJAN K ACA	07/05/2007
144	202985	MR. SUNDARA RAJAN P B FCA	16/08/2007	179	205743	MR. BALAJI R FCA	03/03/2008
145	203026	MS. RAJALAKSHMI N ACA	17/05/2007	180	205877	MS. MANISHA GUPTA ACA	13/06/2007
146	203059	MS. DEVI S FCA	21/01/2008	181	205887	MR. VENKAT RAAMAN R FCA	21/06/2007
147	203523	MR. THOMAS P A ACA	20/04/2007	182	205918	MR. BALAJI R ACA	18/04/2007
148	203533	MR. BIJU VARGHESE THOMAS ACA	10/01/2008	183	205923	MS. HEMALATHA R ACA	11/04/2007
149	203593	MS. KAMINI SHAH ACA	06/03/2008	184	205973	MS. KATGERI SWAPNA GOPALRAO ACA	24/07/2007
150	203681	MR. DEVANANDA ACA	16/05/2007	185	206109	MR. PABBISSETTY SHANKARNATH ACA	13/04/2007
151	203799	MS. RAMA K ACA	26/11/2007	186	206170	MR. MADHAVAN R ACA	03/08/2007
152	203838	MS. KANCHANA S FCA	03/04/2007	187	206195	MR. SUGHESH C M ACA	07/11/2007
153	203888	MR. VENKATESWARLU A ACA	14/08/2007	188	206249	MR. VENKATESH P A FCA	29/10/2007
154	203928	MR. GOKUL CHANDAR D ACA	06/11/2007	189	206306	MR. BIJU JOSE THOMAS ACA	26/04/2007
155	204090	MR. SRINIVASAN R ACA	29/01/2008	190	206348	MR. ANANDA NARAYANAN G ACA	14/06/2007

S.N.	MRN	Member Name	Restore Date	S.No.	MRN	Member Name	Restore Date
191	206661	MR. RAMACHANDRA K HEGDE ACA	24/05/2007	226	209964	MS. VIDHYA V ACA	05/11/2007
192	206851	MR. MUNAGALA KRISHNA ACA	04/06/2007	227	210138	MR. SOUNDAR RAJ C ACA	11/05/2007
193	207208	MS. ANEETHAKUMARI S ACA	11/06/2007	228	210153	MS. MANVI KELA ACA	18/06/2007
194	207213	MR. PURUSHOTHAMAN R ACA	16/08/2007	229	210157	MR. FAIZ MAYALAKKARA ACA	29/10/2007
195	207367	MS. LOVELY JOHN ACA	07/08/2007	230	210262	MR. JOMON GEORGE ACA	10/07/2007
196	207414	MR. KUMAR J S FCA	22/06/2007	231	210264	MS. RESHMA MALAVIAH ACA	27/03/2007
197	207563	MR. BALAGANESH K ACA	26/03/2007	232	210346	MR. SUJIT KUMAR M ACA	26/10/2007
198	207854	MS. MONIKA RAO ACA	24/04/2007	233	210492	MR. SATYA SRIDHAR GARIMELLA ACA	14/01/2008
199	208067	MR. TUMARADA NARASIMHA MURTHY FCA	20/03/2008	234	210652	MR. SANDEEP KUMAR AGARWAL ACA	11/12/2007
200	208086	MR. RADESH KRISHNA S ACA	15/06/2007	235	210765	MR. STALIN K ACA	11/04/2007
201	208285	MS. ANJU MARIAM THOMAS ACA	04/04/2007	236	210798	MR. CHAKKA VENKATA RAJESHWAR ACA	12/06/2007
202	208288	MR. JUDE B ACA	18/06/2007	237	210832	MR. SATYANARAYANA MURTY DHAVALA ACA	26/07/2007
203	208321	MR. RAVI R T FCA	20/12/2007	238	210833	MS. NYAPATHY SRILATHA ACA	04/04/2007
204	208341	MR. SATYA SAI BABU G ACA	16/07/2007	239	210860	MR. RAJESH C NAIR ACA	30/01/2008
205	208391	MR. RAGHUKUMAR P ACA	21/08/2007	240	210869	MS. ALEENA MARY VARKEY ACA	07/12/2007
206	208412	MR. SENTHILKUMARAN S J ACA	09/08/2007	241	210893	MR. JOE MATHEW ACA	17/09/2007
207	208447	MS. NITA ADYANTHAYA H ACA	24/07/2007	242	210924	MS. SREEKALA R ACA	05/04/2007
208	208517	MR. PADIYYA NAIDU PANDURI ACA	09/07/2007	243	210941	MS. SUPRIYA S ACA	07/03/2008
209	208624	MR. ITTA BADRINATH ACA	27/08/2007	244	210974	MR. MANOJ SEBASTIAN ACA	19/02/2008
210	208910	MR. ALAPATI S P PRASAD FCA	14/12/2007	245	211236	MR. SATEESH KORUPOLU ACA	29/08/2007
211	208926	MR. ASHOK KUMAR N ACA	03/05/2007	246	211313	MR. SANATH KUMAR R ACA	18/07/2007
212	208963	MR. VENKATA NARAYANA YAKKANTI ACA	03/08/2007	247	211338	MR. PAVAN KUMAR REDDY B ACA	12/04/2007
213	208993	MR. SRINIVASAN N ACA	14/09/2007	248	211410	MS. KRITHIKA V ACA	05/09/2007
214	209001	MR. SIDHIQUE P K ACA	08/10/2007	249	211431	MR. SUDHIR R ACA	13/03/2008
215	209100	MR. NAGABUSHANA REDDY V ACA	21/09/2007	250	211449	MR. RATNAKAR TANKALA ACA	12/06/2007
216	209162	MR. PRASAD H S ACA	21/05/2007	251	211488	MR. AJAY R J ACA	29/05/2007
217	209251	MR. SREENIVASA REDDY T ACA	20/08/2007	252	211521	MR. AZAM NAWAZ SHERIFF ACA	05/07/2007
218	209294	MR. RAMANATHAN N V ACA	06/08/2007	253	211683	MR. GANGADHARAN V ACA	14/08/2007
219	209333	MS. VIDYA G ACA	09/04/2007	254	211923	MR. MALLIKARJUNA R ACA	27/03/2007
220	209355	MR. MOHAMMED ABDUL KHAYYUM ACA	30/03/2007	255	211999	MR. RAJARAMAN G ACA	11/12/2007
221	209517	MR. SUDHEENDRA KUMAR G ACA	18/06/2007	256	212168	MR. SUDHEER KUMAR G ACA	26/06/2007
222	209528	MR. SRINIVASAN R ACA	08/10/2007	257	212227	MR. ANAND V SUBRAMANIAM ACA	01/10/2006
223	209566	MS. NANDHINI S ACA	27/08/2007	258	212320	MR. PRABHU VINAYAK VARDARAJ ACA	31/03/2008
224	209646	MS. SHUBA S ACA	04/05/2007	259	212352	MS. SANDHYA B S ACA	22/05/2007
225	209898	MR. MOHAMMED AFZAL KHAN ACA	20/06/2007	260	212464	MS. SUJATHA P ACA	14/05/2007

S.N.	MRN	Member Name	Restore Date	S.No.	MRN	Member Name	Restore Date
261	212496	MR. ARJUN SARATHY R S ACA	01/10/2007	287	214687	MR. SRIRAM S ACA	12/03/2008
262	212534	MR. SATHISH R ACA	15/05/2007	288	214742	MS. BHANU B R ACA	09/08/2007
263	212564	MR. DEVIAM M C ACA	18/04/2007	289	214931	MR. KAMLESH KUMAR BHANSALI ACA	17/08/2007
264	212572	MR. BALASUBRAMANIAN K ACA	19/07/2007	290	215051	MR. SATISH CH V V JADDU ACA	25/09/2007
265	212649	MR. LAKSHMI NARAYANAN D ACA	19/09/2007	291	215114	MS. APARNA PRAFUL VORA ACA	10/10/2007
266	212652	MR. PREM KUMAR K ACA	04/10/2007	292	215212	MR. ASHRAF VALAPPIL ACA	01/10/2007
267	212675	MR. SEENIVASAN P ACA	24/09/2007	293	215233	MR. DADMI VENKANAGOUDA SANGANAGOUDA ACA	25/06/2007
268	212756	MR. PARAMESHA S R ACA	17/04/2007	294	215259	MS. ARATHI LAKSHMI SUBRAMANIAN ACA	21/08/2007
269	212927	MR. DANNY CHANDURSEN CHOTRANI ACA	31/10/2007	295	215281	MR. RAMA KRISHNA A ACA	22/08/2007
270	212968	MS. NITHIYAA D ACA	12/09/2007	296	216134	MR. PRANAYA KUMAR MOHAPATRA ACA	26/07/2007
271	213024	MR. SAMEER AHMED KHAN ACA	20/04/2007	297	216323	MR. MURALI G ACA	07/03/2008
272	213197	MS. SOWMYA T V ACA	26/09/2007	298	216508	MS. SWATHI PANTINA ACA	07/05/2007
273	213329	MR. VINAYA KUMAR VUPPALA ACA	14/09/2007	299	216544	MS. SUBHA KRISHNAMURTHY ACA	17/01/2008
274	213358	MR. KALYANA SUNDARAM V V ACA	01/10/2007	300	216551	MR. NITIN MENON ACA	27/07/2007
275	213390	MS. VANI S ACA	06/11/2007	301	216560	MR. SESHAGIRI S ACA	18/06/2007
276	213501	MS. VISALAKSHI V ACA	29/11/2007	302	216719	MR. VINOD KUMAR G ACA	30/08/2007
277	213503	MR. SHASHINDER REDDY S ACA	25/04/2007	303	216802	MR. ESWARA REDDY BATTULA ACA	21/01/2008
278	213522	MR. PAMIDI SRIKANTH ACA	17/04/2007	304	216809	MS. PUSHAGIRI V ACA	13/03/2008
279	213711	MS. SMRITI CHANDRA ACA	30/04/2007	305	217030	MR. DILIP KUMAR CHALASANI ACA	13/03/2008
280	213735	MR. VEERAPPAN M ACA	02/08/2007	306	217238	MR. VEERAVENKATA SUBBARAO K ACA	25/02/2008
281	213964	MS. PAPPU LAKSHMI SIREESHA ACA	17/09/2007	307	217255	MR. VENKATA REDDY SUNKARA ACA	25/02/2008
282	213999	MR. PAI SANJAY VISHNU ACA	04/06/2007	308	401573	MS. GUPTA SWATI ACA	09/07/2007
283	214080	MR. JOSEPH A ACA	05/09/2007	309	403189	MR. AGARWAL YOGESH KUMAR ACA	19/06/2007
284	214120	MR. BADEY HIMA VENKATA NARESH ACA	05/09/2007	310	404518	MS. MUKHERJEE SHIOMITA ACA	15/05/2007
285	214136	MR. VIJAYA SAI KRISHNA TOLETI / ACA	07/09/2007	311	503628	MR. GUPTA ATUL ACA	09/01/2008
286	214280	MR. GIBU CHACKO ACA	14/05/2007	312	505067	MR. MAHESHWARI SANJAY KUMAR ACA	19/04/2007

T. KARTHIKEYAN  
SECRETARY

## EMPLOYEES, STATE INSURANCE CORPORATION

Ahmedabad, the 20th July 2009

File No. U-12.14.SRT.DIC.PTMR.SMC.09-- In pursuance of resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the power of Corporation under regulation 105 of the ESI ( General ) Regulation, 1950 and such power further delegated to me vide Director General order on file No. Pt. file -U-13 / 12 / 13 / 2005- PTMR-( Med.I ). dated 04-08.2008. I hereby authorized the following doctor(s) to function as Medical authority at a monthly remuneration at a in accordance with norms w. e. f. the date given below for one year or till a full time Medical Refree joins, whichever is earlier, for centers as stated below for areas allocated by undersigned, for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certification to them, when the correctness of the original certificate is in doubt.

NAME	PERIOD FROM TO 1 (YEAR)	NAME OF CENTRE. PLACE / DIST. / STATE.
Dr. D. I. Chauhan.	10-5-09 to 9-5-10.	SRO Surat / GUJARAT.

SATISH BALAARORA  
State Medical Commissioner

File No. U.12.14.PJS.KLL.PTMR.SMC.08 : In pursuance of resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the power of Corporation under regulation 105 of the ESI ( General ) Regulation, 1950 and such power further delegated to me vide Director General order on file No. Pt. file -U-13 / 12 / 13 / 2005- PTMR-( Med.I ). dated 04-08.2008. I hereby authorized the following doctor(s) to function as Medical authority at a monthly remuneration at a in accordance with norms w. e. f. the date given below for one year or till a full time Medical Refree joins, whichever is earlier, for centers as stated below for areas allocated by undersigned, for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certification to them, when the correctness of the original certificate is in doubt.

NAME	PERIOD FROM TO 1 (YEAR)	NAME OF CENTRER. PLACE / DIST./ STATE.
Dr. G. G. Karna.	1-8-09 to 31-7-10.	Jamalpur, A'bad. / GUJARAT.

SATISH BALAARORA  
State Medical Commissioner



**RASHTRIYA SAHAKARI VIKAS NIGAM**  
**(NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION)**

-----

No.NCDC:6-1/2006-Admn.

Dated: July 22, 2009

In exercise of powers conferred by sub section(2) of section 23 of the National Co-operative Development Corporation Act, 1962 (26 of 1962), the National Co-operative Development Corporation with the previous sanction of Central Government hereby makes the following regulation to amend the National Co-operative Development Corporation Service Regulations, 1967, namely:-

1. (1) These Regulations may be called the National Co-operative Development Corporation Service (Amendment) Regulations, 2009.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the National Co-operative Development Corporation Service Regulations, 1967 (hereinafter referred as the said regulation),\_\_\_\_ in regulation 53 in sub-regulation (1), the following shall be inserted at the end, namely:-

**“ Child Care Leave \_\_\_\_\_ (see regulation 60(4))”.**

3. (ii) In the said regulations, in regulation 59, for sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely:-

**“Half Pay Leave.\_\_\_\_**During the entire period of his service, an employee may be granted half pay leave in advance in two instalments of ten days each on the first day of January and July of every calendar year”.

4. In the said regulation, in regulation 60, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely:-

“A female employee shall be eligible for grant of maternity leave on full pay for a period of one hundred and eighty days from the date of commencement of such leave and she shall be allowed leave of all kind due and admissible, including commuted leave for a period not exceeding sixty days and leave not due, that can be granted in continuation shall not exceed two years”.

5. In the said regulation,\_\_\_\_ after regulation 60, the following shall be inserted, namely:-

**“60 A, Child Care Leave.\_\_\_\_\_**

- (1) A female employee having two minor children may be granted Child Care Leave by the competent authority, for a maximum period of Seven hundred and thirty days in the entire service for taking care of two eldest surviving children only whether for rearing or to look after any of their needs like examination, sickness etc.
- (2) Child Care leave shall not be admissible after the child has attained the age of eighteen years.
- (3) During the period of such leave, the female employee shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on such leave.
- (4) It may be availed of in more than one spell.
- (5) It shall not be debited against the leave account.
- (6) It may also be allowed for the third year as leave not due without production of medical certificate.
- (7) It may be combined with leave of the kind due and admissible.
- (8) Child Care leave cannot be demanded as a matter of right.
- (9) No employee shall proceed on Child Care Leave without prior approval of the competent authority.
- (10) The leave shall be deemed as Earned Leave and sanctioned as per its procedure.
- (11) It shall be admissible only when the employee has no earned leave at her credit.
- (12) The leave account for Child Care leave shall be maintained separately".

RAJIV AGARWAL  
Managing Director

Note.\_\_\_\_\_The principal regulations were published vide notification number 21 dated 25.5.1968